



CHARMINAR®
PAINT BRUSH

Cell : 9440297101

वर्ष-27 अंक : 319 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) माघ शु. 12 2079 गुरुवार, 2 फरवरी 2023

THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH

स्वतंत्र
वार्ता



epaper.vaartha.com



जोड़ों के दर्द से तुरंत राहत

MY Dr. Pain Relief Oil

सभी प्रकार के दर्द के लिए उत्तम

100% ayurvedic

घुटना पीट गर्दन कंधा

For Trade Enquiry : 8919799808 www.mydrpainrelief.com



प्रधान संपादक – डॉ. गिरिश कुमार संची हैदराबाद नगर पृष्ठ : 16 मूल्य : 8 रुपये

अमृतकाल में छप्परफाड़ बजट

*** सैलरीड क्लास की 7.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री-नई टैक्स रिजीम के स्लैब भी बदले**



नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को राहत तो दी, लेकिन उनको जो फाइनंशियल ईयर 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुननेगे। पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से एक रुपया भी ज्यादा हुई तो टैक्स चुकाना होगा। नए टैक्स सिस्टम के लिए वित्त मंत्री ने नए स्लेब्स का भी ऐलान कर दिया है। उनके लिए अब 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी।

पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख से ज्यादा इनकम पर टैक्स

पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख - 2.5 लाख = 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फायदा

उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है।

मतलब यह कि अगर किसी की सालाना टैक्सबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर आपकी कमाई 5 लाख 10 हजार रुपए हुई तो आपको 10

हजार रुपए पर टैक्स देने के बजाय 5.10 लाख - 2.5 लाख = 2.60 लाख पर टैक्स देना होता है।

फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया है। यानी बजट में इनकम टैक्स से दी गई राहत सिर्फ इसी पर लागू होगी।

गरीबों को एक साल और मिलेगा मुफ्त अनाज, युवाओं को रोजगार

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 1 घंटे 27 मिनट की स्पीच में देश को भरोसा दिलाया कि अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। बताया कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है।

इनकम टैक्स: 8 साल बाद छूट की सीमा बढ़ी
अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी।

आखिरी बार 2014-15 बजट में इनकम टैक्स स्लेब में बदलाव किया गया था।

2. क्या सस्ता, क्या महंगा
टीवी सस्ते होंगे। वजह पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। मोबाइल फोन भी सस्ते होंगे, क्योंकि मैनुफैक्चरिंग के लिए कुछ पाटर्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। हिरों की कीमतें कम होंगी। मैनुफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर ड्यूटी कम की गई है। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया, ये महंगी होंगी। चांदी से बने आइटम्स महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है।

बजट के दौरान गंधीर मुद्दों पर ऐलान के बीच मजदूर प्रत्याभा भी आया। सीतारमण स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थीं। इस दौरान वे

ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल को ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल कह गईं। फिर बोलीं- सॉरी...सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएं।

3. रोजगार
इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब्स शब्द का इस्तेमाल ही महज 4 बार किया। पीएम कौशल विकास योजना का ही 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। बोलीं- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल एंप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा।

4. किसान
सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की।

यह पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एग्रीकल्चर से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप तक की जानकारी मिल सकेगी। एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर फंड के जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा।

5. इंडस्ट्री-स्टार्टअप
देश के 6 करोड़ से ज्यादा छोटे-मझोले उद्योग हैं और 84 हजार से ज्यादा स्टार्टअप। इनके लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसमें छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिया जाएगा। **>14**

1. 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा
2. गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज एक साल और मिलेगा
3. इस साल युवाओं को रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस ज्यादा

हथियार खरीद के लिए 3 साल में सबसे कम बजट

पैसा बचाने के लिए अग्रिपथ लाए, फिर भी सैलरी का बजट 38 हजार करोड़ बढ़ाया

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। चीन से तनातनी के बीच डिफेंस बजट में हथियारों की खरीद के लिए पिछले तीन साल में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। इस बार कैपिटल बजट महज 10 हजार करोड़ रुपए ही बढ़ा है।

डिफेंस बजट में सबसे ज्यादा रकम सैलरी बांटने के लिए मिली है। जो पिछले साल के मुकाबले करीब 16% ज्यादा है। रिटायर्ड सैनिकों के लिए भी अच्छी खबर है। पेंशन बजट में 19 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जो पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा इजाफा है।

अब डिफेंस बजट 5.93 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कुल बजट का करीब 8% है। यानी पिछले साल के मुकाबले 5% कम। बड़ी बात यह है कि एक घंटा 25 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एक बार भी डिफेंस का जिक्र नहीं किया। डिफेंस बजट में मुख्य रूप से 3



पार्ट होते हैं। रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन।

1. रेवेन्यू: सैलरी बांटने के लिए सबसे ज्यादा बजट

इसका ज्यादातर हिस्सा डिफेंस स्टाफ की सैलरी पर खर्च होता है। इस साल रेवेन्यू बजट 2.77 लाख करोड़ रुपए है। पिछले साल इसके लिए 2.39 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। यानी इस बार करीब 38 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है बजट में फौजियों की

सैलरी पर जोर दिया गया है। फिलहाल तीनों सेनाओं में करीब 14 लाख सैनिक हैं। आर्माड फोर्सेज के बाकी खर्च जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेंसंस, सड़कों और ब्रिजों का निर्माण भी रेवेन्यू में शामिल होता है। इसमें डिफेंस की पब्लिक सेक्टर यूनिट और कैंटीन स्टॉप्स भी आते हैं।

2. कैपिटल एक्सपेंडिचर: हथियारों की खरीद के लिए सिर्फ 10 हजार करोड़ का इजाफा
वित्त मंत्री ने साल 2023-24

के लिए कैपिटल बजट में 1.62 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। पिछले साल इसके लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। यानी करीब 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 12% की बढ़ोतरी हुई थी। उसके पहले 2021-22 में 19% की बढ़ोतरी हुई थी। सेना की ताकत के लिहाज से यह सबसे अहम पार्ट होता है। इससे हथियार, एम्पुनिशन, फाइटर प्लेन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं।

3. पेंशन: रिटायर्ड सैनिकों के लिए अच्छी खबर
डिफेंस बजट में पेंशन के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। पिछले साल यह आंकड़ा 1.19 लाख करोड़ रुपए था। यानी इस बार करीब 19 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2022 में भी सरकार ने पेंशन के लिए 4 हजार करोड़ अधिक दिए थे। देश में तीनों सेनाओं से रिटायर्ड सैनिकों की संख्या करीब 26 लाख है। **>14**

अंतरिक्ष विभाग को 12,543.91 करोड़ रुपये मिलेंगे

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष विभाग को वर्ष 2023-24 के लिए 12,543.91 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया है। यह आवंटन अंतरिक्ष विभाग और इसके अंतर्गत आने वाले अन्य संगठनों जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और इसके केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष खिलाड़ियों के लिए नियामक) और अन्य के लिए है। अनुदान दस्तावेज की मांगों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 के लिए अंतरिक्ष विभाग के लिए आवंटन 12,543.91 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2023 के संशोधित अनुमान 10,530.04 करोड़ रुपये से अधिक है। द न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा) को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। कंपनी को वित्त वर्ष 2022 में 900 करोड़ रुपये का इकिटी इनयूजून मिला था।

करोड़ों विश्वकर्मा देश के निर्माता : पीएम मोदी



नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। बजट 2023 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। मूर्तिकार, शिल्पकार यह सभी देश के लिए मेहनत करते हैं। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट की योजना की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना यानी विकास इन विश्वकर्माओं के लिए बड़ा बदलाव लाएगा।

उन्होंने आगे कहा, “गांव में रहने वाली महिलाओं से लेकर शहरी महिलाओं के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे अनेक कदमों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत में बड़ी जगह अपने लिए ले चुका है। इन्हें संबल देने के लिए नई

पहल बजट में किया गया है। महिलाओं के लिए एक विशेष बजट योजना भी शुरू की जा रही है।

जन धन अकाउंट के बाद यह विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की माओं को बड़ा फायदा देने वाली है। पीएम मोदी ने कहा, “भारत हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानों करते हैं, उन्हें फायदे मिलेंगे और देश को इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, “बजट में हमने तकनीक और न्यू इकोनॉमी पर बहुत बल दिया है।

इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजना लेकर आए हैं। उन्होंने आगे कहा, “हम मिलेट्स के लिए बड़ी योजना लेकर आए हैं। जब यह घर-घर पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पापुलर हो रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत के किसानों को होना है। इसलिए बजट में इसके लिए श्रीअन्न की बड़ी योजना बनाई गई है। इससे हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानों करते हैं, उन्हें फायदे मिलेंगे और देश को इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, “बजट में हमने तकनीक और न्यू इकोनॉमी पर बहुत बल दिया है।

मोदी सरकार के संकल्प को और गति देगा : अमित शाह

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बजट 2023 को सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। अमित शाह ने अपने श्रंखलाबद्ध ड्रीट्स में कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है। युवाओं को कितनाबे उलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं।

फारूक अब्दुल्ला ने की तारीफ तो थरूर दिखे नाराज

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में महिलाओं,युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों का खासा ख्याल रखने की कोशिश की गई है। इस बार सबसे खास बात यह रही कि टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक सात लाख रुपये तक की आय वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अब वित्त मंत्री के बजट में किए गए एलानों के बाद नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं।

बजट में सबको कुछ न कुछ दिया गया: फारूक अब्दुल्ला
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है, सबको कुछ न कुछ दिया गया है। डेढ़ घंटे तक हमने बजट सुना अब हम इसपर बात करेंगे जब मौका आएगा।

बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था: शशि थरूर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थीं मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है? बेरोजगारी, महंगाई की बात भी नहीं की गई।

इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा: स्मृति ईरानी
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा, बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से जिला स्तर पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बहूनें इसका उल्लेख किया गया है। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है इसका प्रतिबिंब आज के बजट में दिखता है। ये बजट मध्यम वर्ग के हित में भी है, इससे भारत प्रफुल्लित है भले ही विपक्ष नाराज हो। **>14**

एपी सिंह वायु सेना के उप-प्रमुख



नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)।एयर मार्शल अमनप्रोत सिंह ने वायु सेना के नए उप-प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह लिया है जो सेवामुक्त हो गए हैं। एयर मार्शल एपी सिंह वर्तमान में प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में सेवारत हैं।

जानकारी के मुताबिक, एयर मार्शल एपी सिंह को 21 दिसंबर, 1984 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्टीम में कमीशन दिया गया था। एयर मार्शल सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के फिक्स्ड विंग और रोटररी विंग एयरक्राफ्ट पर 4,900 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है।

गुलमर्ग में एवलांच 2 विदेशी टूरिस्ट की मौत

19 लोगों को बचाया गया, बर्फ में दबा स्की रिसॉर्ट
श्रीनगर, 1 फरवरी (एजेंसियां)। जम्मू-कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में बुधवार को एवलांच हुआ है। स्की रिसॉर्ट इसकी चपेट में आ गया। हिमखलन में पोलैंड के दो टूरिस्ट की मौत हो गई, जबकि 19 विदेशी नागरिकों को बचाया गया है। एसएसपी बारामूला ने बताया कि हिमखलन की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी कहा नहीं जा सकता है कि बर्फ में कितने लोग दबे हैं। बारामूला पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि एवलांच की चपेट में आए लोग हादसे के दौरान ढलान पर थे। एवलांच में मरने वाले दोनों पोलिश नागरिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्हें मेडिको-लीगल प्रोसेस के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

जून में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं अमेरिका की यात्रा, व्हाइट हाउस से आया बाइडन का न्योता

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल गर्मियों में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, यात्रा की तारीखों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है और दोनों देशों के अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका यात्रा का निमंत्रण भेजा गया है। दोनों देशों के प्रशासन ने इस निमंत्रण को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया है। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के अधिकारी जून-जुलाई की उपयुक्त तारीखों पर चर्चा कर रहे हैं, जब न केवल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के दोनों आयोजित होने हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की के पास भी कोई पूर्व नियोजित अंतरराष्ट्रीय यात्रा व घरेलू व्यस्तता नहीं है। बता दें, राजकीय यात्रा के लिए कम से कम कुछ दिनों की आवश्यकता होती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना और व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रिभोज शामिल है।



महिला आयोग की चेरपरर्सन को पद से हटाया

तीन साल का दिया गया था एक्सटेंशन



मोहाली, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। पंजाब सरकार ने महिला आयोग की चेरपरर्सन मनीषा गुलाटी को उनके पद से हटा दिया है। कांग्रेस सरकार के समय में उन्हें इस पद पर 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी थी। हालाँकि सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एक्सटेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए उक्त आदेश को वापस लिया जा रहा है। पद पर रहते मनीषा गुलाटी ने महिला आयोग में काफी अच्छे कार्य किए हैं। वह केवल ऑफिस ही नहीं बल्कि फील्ड में भी काफी सक्रिय थीं। कोरोना काल में जब लोगों के रोजगार जा रहे थे, उस समय न्यू स्टार्टअप शुरू करने वाली महिलाओं को उन्होंने फील्ड में जाकर सम्मानित किया। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को कम करने के लिए उन्होंने काम किया। एनआरआई युवकों का शिकार हुई युवतियों को उनके हक दिलाने के विदेशी सरकारों के सामने मामले को गंभीरता से उठाया।

बांधवगढ़ टाइमर रिजर्व की बाधिन डॉटी की फोटो वायरल

शांत मुद्रा में सैलानियों का मनोरंजन करते दिखी

उमरिया, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइमर रिजर्व देशभर में अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहां से अक्सर बाघों के रोमांचक वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार किसी बाघ या बाधिन का वीडियो नहीं बल्कि एक तस्वीर सुर्खियों में बनी है। हाल ही में रिजर्व की बाधिन डॉटी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल फोटो में बाधिन शांत मुद्रा में पर्यटकों का मनोरंजन करते नजर आ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि डॉटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे पहले कभी भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। पर्यटकों को बाधिन की तस्वीर काफी पसंद आ रही है।

जींद में झाड़ियों में मिला 10 माह का बच्चा

मां ने कपड़े में लपेट कर डाला; रोने की आवाज सुनकर पहुंची महिलाएं जींद, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। हरियाणा के जींद में राजकीय रेलवे पुलिस थाना और क्वार्टरों के बीच झाड़ियों में करीब 10 माह का बच्चा मिला है। बच्चे के रोने की आवाज कॉलोनी के लोगों को सुनाई पड़ी तो वे मौके पर पहुंचे। वहां पर कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा मिला। बच्चे के पास दूध की निपल वाली बोतल भी थी। बच्चा कुपोषण का शिकार और बीमार लग रहा है। पुलिस ने बच्चे के माता-पिता की खोज के लिए आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया, लेकिन सुराग नहीं लगा।

रेवाड़ी में स्कूटी की ट्रॉले से टक्कर

चाचा की मौत, भतीजा घायल; कसौला चौक पर हादसा; ड्यूटी से लौट रहे थे दोनों

रेवाड़ी, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्कूटी पर घर लौट रहे चाचा-भतीजा को एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसे में टायर के नीचे आने से चाचा की मौत हो गई, जबकि उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। कसौला थाना पुलिस ने आरोपी ट्रॉला चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आज मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

करनाल में व्यक्ति ने किया सुसाइड

स्टेडियम के कमरे में जाकर लगाई फांसी, मजदूरी करता था मृतक करनाल, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। हरियाणा में करनाल के गांव गौंद में एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में खेल स्टेडियम में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है।



‘हम वेल्ले हैं क्या?’

दिल्ली दंगे की सुनवाई में नहीं पहुंचे केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तो भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज; दी चेतावनी

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के वकील को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली दंगे से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था। एससी की बेंच के सामने दिन में दो बार मामला सुनवाई के लिए आया, लेकिन केंद्र के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया और फटकार लगाते हुए कहा कि अगर अगली बार से सॉलिसिटर जनरल उपलब्ध नहीं हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था करें।

बया या पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के खिलाफ को दायर दिल्ली पुलिस की अपील पर सुनवाई कर रहा था। मंगलवार (31 जनवरी) को जब सुबह मैटर सुनवाई के लिए आया तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, जो केंद्र



सरकार को रिपोर्ट करती है। इसके बाद बेंच ने तय किया कि मामले की सुनवाई दोपहर बाद होगी। शाम 4 बजे जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए.एस स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के खिलाफ को दायर दिल्ली पुलिस की अपील पर सुनवाई कर रहा था। मंगलवार (31 जनवरी) को जब सुबह मैटर सुनवाई के लिए आया तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, जो केंद्र

‘हम लोग यहां वेल्ले बैठे हैं क्या?’

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर जस्टिस संजय किशन कौल नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ‘सॉलिसिटर जनरल (एसजी) को तो मैंने भी देखा। लेकिन अब सवाल यह है कि सुनवाई कैसे होगी। इस पर केंद्र के वकील नय्यर ने कहा कि कृपया अगले हफ्ते की डेट दे दें, उस वक्त सॉलिसिटर जनरल मौजूद होंगे’। इस पर जस्टिस कौल ने बिफरते हुए कहा कि ‘हम लोग वेल्ले बैठे हैं क्या? हम लोग यहां बैठे रहे हैं और जब आपका मन करे तब आएँ, जब मन चाहे तब जाएँ’। इस नय्यर ने कहा ‘आई एम

'रजिस्ट्रेशन काफी नहीं, कितनों को मिलता है लाभ?'

प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

प्रवासी या असंगठित श्रमिकों में से कितने के पास राशन कार्ड है और एनएफएसए के तहत लाभ पाते हैं. अदालत ने प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कोविड-19 के दौरान एक याचिका पर सुनवाई शुरू की थी. कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों में लौटने को मजबूर हुए थे, क्योंकि उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने 20 फरवरी को अगली तारीख देते हुए सभी राज्यों को



अगली तारीख पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह निर्देश सरकार की गलती खोजने के लिए नहीं बल्कि जनकल्याण की योजनाओं को उनके लाभार्थियों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है. केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या फाटी ने

बजट 2023: मुख्तार अब्बास नकवी ने की बजट की तारीफ

आत्मनिर्भर, सशक्त, समर्थ भारत के सफल सफर का हमसफर बताया

रामपुर, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर, सशक्त, समर्थ भारत के सफल सफर का हमसफर है। भाजपा नेता ने बजट को किसानों के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का ये नतीजा है कि आज देश तमाम संकटों के दौरान भी देश की आवश्यक्यता प्रभावित नहीं हुई। **रामचरित मानस को लेकर बयानबाजी करने वाला अज्ञानी नकवी**



पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रामचरित मानस को लेकर कर रही राजनीति और बयानबाजी पर कहा है कि रामचरित मानस देश की आत्मा है भगवान राम इस देश के लोगों की रगों में बसे हुए हैं। न केवल भारत के बल्कि, पूरी दुनिया की रगों में हैं अगर कोई बयानबाजी

'क्यों आऊं? मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ'

बम की अफवाह के बाद अहमदाबाद हवाईअड्डे पर दहशत



अहमदाबाद, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। अहमदाबाद पुलिस को मंगलवार शाम को बम की धमकी की सूचना मिली। कॉल करने वाले ने दावा किया था कि अहमदाबाद-दिल्ली उड़ान में बम था, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। बम की धमकी की सूचना मिलते ही अहमदाबाद हवाई अड्डे ने पुलिस को सतर्क कर दिया। हालाँकि, टीम द्वारा की गई जांच में पता चला कि यह एक फर्जी कॉल थी। पुलिस ने फर्जी कॉल करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच में पता चला कि फ्लाइट को शाम 5:20 बजे रवाना होना था। यात्रियों में से एक को सवार होने के लिए छोड़ दिया गया था और हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उसे उड़ान प्रस्थान के बारे में याद दिलाने के लिए कॉल किया गया। कॉल रिसीव

करने वाले ने कहा, 'मैं क्यों आऊं? मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। उसने अधिकारियों से कहा, आपकी उड़ान में बम है मैं नहीं जाऊंगा। वहीं जब उस व्यक्ति से उसकी पहचान बताने को कहा गया तो उसने तुरंत फोन काट दिया।' जैसा कि हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया, वह यात्री जो अभी तक सवार नहीं हुआ था, काउंटर पर गया। यात्री ने अधिकारियों को सूचित किया कि उसका टिकट उसकी कंपनी के प्रशासन विभाग द्वारा बुक किया गया था और टिकट बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया फोन नंबर और ईमेल पता उसका नहीं था। इस बीच, दिल्ली-अहमदाबाद फ्लाइट में बम होने की झूठी सूचना देने वाले कॉलर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के फैसले से पहले आपत्तियां, सुझाव मांगे गए क्या?: अदालत



मुंबई, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से यह जानना चाहा कि क्या उसने राज्य में औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नया नाम रखने का फैसला करने से पहले आपत्तियां या सुझाव मांगे थे. 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को राशन, सामुदायिक रसोई उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे. यहां तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए राशन कार्ड योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया था.

अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि नाम परिवर्तन किए जाने की अंतिम प्रक्रिया पूरी हुए बिना क्या प्राधिकार नये नाम का उपयोग आधिकारिक पत्राचार में कर सकेंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पिछले साल औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदल कर क्रमशः संभाजी नगर और धाराशिव रखने को मंजूरी दी थी. इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दो जनहित याचिकाएं दायर की गईं थी. सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से सवाल किया, 'क्या उसने आपत्तियां मांगी है.' वकील ने कहा, 'हमें अभी यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.' पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई 15 फरवरी के लिए निर्धारित कर दी.

पुणे-सोलापुर हाईवे पर खड़े ट्रक में जा भिड़ी लगजरी बस, 4 की मौत, 15 घायल

पुणे, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। महाराष्ट्र के पुणे-सोलापुर हाईवे पर बुधवार को बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई. हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा इतना भयंकर था कि बस का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह तड़के 5 बजे हुआ. एक लगजरी बस पुणे की तरफ जा रही थी. इसी दौरान पुणे जिले के यवत गांव के पास हाईवे पर एक ट्रक किनारे की तरफ खड़ा था, जिसमें बस बाईं तरफ से जा भिड़ी.

हादसे में बस का बायां हिस्सा बुरी तरह कुचलता चला गया. दुर्घटना में सबसवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं 15 लोगों को गंभीर चोट आई है. सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. स्थानीय रिपोर्टें से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ट्रक का टायर फट गया था. ड्राइवर ने ट्रक को हाईवे पर ही किनारे खड़ा कर दिया था. पीछे की तरफ से आ रही बस के ड्राइवर को ट्रक का अंदाजा नहीं लग पाया और बस का एक हिस्सा सीधे ट्रक में भिड़ गया.

नव दास हत्याकांड: पीएसओ पर गिरी गाज, ओडिशा सरकार ने मित्रभानु देव को किया सरपेंड

झारसुगुड़ा, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। ओडिशा के झारसुगुड़ा में पिछले दिनों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नव किशोर दास की पुलिस अधिकारी ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी. नव किशोर दास की हत्या के मामले में अब उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) पर भी गाज गिर गई है.

ओडिशा सरकार ने नव किशोर दास के पीएसओ मित्रभानु देव को सरपेंड कर दिया है. नव किशोर दास के पीएसओ मित्रभानु देव को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में सरपेंड किया गया है. नव किशोर दास की रविवार को एक पुलिस



अधिकारी गोपाल चंद्र दास ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पीएसओ को निर्लंबित करने का ऐलान झारसुगुड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राहुल जैन और ब्रजराजनगर के एसडीपीओ

गाज, ओडिशा सरकार ने मित्रभानु देव को किया सरपेंड

गुप्तेश्वर भोई के तबादले के एक दिन बाद किया गया. नव किशोर दास की हत्या के तीन दिन बाद सरकार ने झारसुगुड़ा के एसपी और ब्रजराजनगर के एसडीपीओ का तबादला कर दिया था. ओडिशा सरकार के सूत्रों की मानें तो स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास की बहुत आराम से दिल दहला देने वाली हत्या को लेकर ही एसपी और ब्रजराजनगर के एसडीपीओ पर तबादले की कार्रवाई की गई. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक झारसुगुड़ा के एसपी राहुल जैन को स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर, कटक से

संबद्ध कर दिया गया है. राहुल जैन की जगह बाड़गढ़ के एसपी परमार श्मित परशोतम दास को झारसुगुड़ा पुलिस की कमान सौंपी गई है. जबकि दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच ने नव किशोर दास की हत्या के आरोपी गोपाल दास को रिमांड पर लिया है. गौरतलब है कि नव किशोर दास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रजराजनगर पहुंचे थे. किशोर दास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रजराजनगर पहुंचे थे. किशोर दास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रजराजनगर पहुंचे थे. किशोर दास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रजराजनगर पहुंचे थे.

तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एसएसआई) ने काफी करीब से उनके सीने में गोली मार दी. नव किशोर दास को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां से एयरलिफ्ट कर उन्हें राजधानी भुवनेश्वर ले जाया गया. दी है. क्राइम ब्रांच ने नव किशोर दास की हत्या के आरोपी गोपाल दास को रिमांड पर लिया है. गौरतलब है कि नव किशोर दास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रजराजनगर पहुंचे थे. किशोर दास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रजराजनगर पहुंचे थे. किशोर दास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रजराजनगर पहुंचे थे.

माकपा से भाजपा में शामिल हुए मबशर अली के खिलाफ ईसी ने खारिज की शिकायत



नामांकन नहीं होगा रह नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियाँ)। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले माक्सरवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआईएम) छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले विधायक मबशर अली के खिलाफ चुनाव के अभाव में उन्हें शिकायत को खारिज कर दिया है। माकपा ने मबशर अली को देशद्रोही

बताते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी। साथ ही उन्हें आपामी चुनाव के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की थी। माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा था कि मबशर अली ने न तो विधानसभा से इस्तीफा दिया है और न ही पार्टी से, किसी भी परिस्थिति में उन्हें भाजपा का उम्मीदवार नहीं माना जा सकता है। इसलिए वैधानिक कानूनी आवश्यकता के अभाव में उन्हें भाजपा उम्मीदवार होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। **भाजपा उम्मीदवार का नामांकन सही** मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिट्टे किरणकुमार दिनकरराव ने बताया कि

चुनाव आयोग को मबशर अली के खिलाफ एक शिकायत मिली थी। निर्वाचन अधिकारी ने उनके फॉर्म और बी की जांच की और पाया कि उनका नामांकन सही है। इस फैसले के बारे में माकपा राज्य सचिव को पहले ही बता दिया गया है। **मबशर अली ने 27 जनवरी को ली थी भाजपा की सदस्यता** कैलाशहर विधानसभा क्षेत्र से माकपा कानूनी आवश्यकता के अभाव में उन्हें भाजपा उम्मीदवार होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

मबशर अली का टिकट कटने की यह रही वजह सीपीआई (एम) के टिकट पर 2018 त्रिपुरा विधानसभा चुनाव जीतने वाले अली को सीपीआई (एम) द्वारा टिकट से वंचित कर दिया गया था क्योंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस के साथ रसीद समायोजनर के हिस्से के रूप में कांग्रेस को दिया गया था। पार्टी की राज्य समिति के सदस्य कार ने पीटीआई से कहा कि हमने मबशर अली से बात की और उन्हें बताया कि उनकी सीट कांग्रेस उम्मीदवार (बिरजीत सिन्हा) को क्यों दी गई। कार ने कहा कि कांग्रेस के साथ जाने का फैसला पार्टी के पोलिट ब्यूरो और राज्य समिति ने देश में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है।



नकली नोट के कारोबार के आरोप में चार गिरफ्तार



हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। सिटी पुलिस आयुक्त की टास्कफोर्स नॉर्थ जोन टीम ने नामपल्ली पुलिस के साथ मिलकर नकली नोट के कारोबार करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) एआर श्रीनिवास ने बताया कि पुलिस ने चार धोखेबाजों को पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में कन्हैया लाल उर्फ जतिन, रामावतार शर्मा उर्फ मोहन, भरत कुमार और राम किशन शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि आरोपी कन्हैया लाल कलकत्ता में स्टाइडिंग विंडो का कारोबार करता है। अपने व्यापारिक लेन-देन के लिए वह ज्ञात व्यक्तियों से ऋण लेता था और अल्पावधि में उसे लौटा देता था। जैसा कि उसे अपने व्यवसाय से बड़ा मुनाफा नहीं मिल रहा था। उसने लोगों को ठगने की योजना बनाई। लोगों के एक भाग के रूप में उसने अपने मूल निवास स्थान राजस्थान के लोगों रामावतार शर्मा, भरत कुमार, राम

किशन शर्मा की सहायता से डुप्लीकेट करेंसी नोट बंडल तैयार करने का फैसला किया। फिर हैदराबाद में अपने परिचित ग्राहकों से हाथ से कर्ज लेने और एक सप्ताह या दस दिनों के भीतर डुप्लीकेट बंडल वापस करने की योजना बनाई। इस कार्यप्रणाली के द्वारा उसने कई अपराध किए। कन्हैया लाल और रामावतार शर्मा दोनों ने होटल मैजेटिक, नामपल्ली के पार्टनर मोहम्मद यूनुस से 30 लाख रुपये का हैंड लोन लिया है।

25 लाख बरामद

फिर आरोपियों ने भरत कुमार और राम किशन शर्मा की मदद से 30 लाख के डुप्लीकेट नोट तैयार किए, जिन्हें पारदर्शी पॉलिथीन कवर में लपेटकर उनको वापस कर दिया। लेकिन शिकायतकर्ता ने बंडल की जांच की तो वह दंगा रह गया कि आरोपी ने उसके साथ धोखा किया है। इसके बाद आरोपी कन्हैया लाल और रामावतार शर्मा ने आइस्कैन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मध्यापुर से 50 लाख रुपये लिए। फिर से आरोपी ने भरत कुमार और राम किशन शर्मा की मदद से 50 लाख के डुप्लीकेट करेंसी नोट तैयार किए, पारदर्शी पॉलिथीन कवर में लपेटे और शिकायतकर्ता को मोती वाइन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, हैदराबाद के पास प्राप्त करने के लिए सूचित किया। उस पर आईस्कैन टेक्नोलॉजीज के प्रतिनिधि टी. प्रदीप कुमार और प्रशांत जोशी दोनों ने आरोपी से मुलाकात की और पारदर्शी

पॉलिथीन कवर में बंद मुद्रा बंडल ले गए। कुछ समय बाद टी. प्रदीप कुमार और प्रशांत जोशी ने नोटों की जांच की और यह देखकर हैरान रह गए कि उनके द्वारा दिए गए नोट जाली नोट हैं। नकली नोटों के बारे में उनकी कंपनी प्रबंधन को सूचित किया। इसके अलावा उन्होंने और कंपनी प्रबंधन ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और कई प्रयास किए लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया या उनका ठिकाना नहीं मिला। अभियुक्त कन्हैया लाल उर्फ जतिन, रामावतार शर्मा, भरत कुमार और राम किशन ने आसानी से अर्जित धन में से कुछ नकद खर्च किया और फिर से वे सभी हैदराबाद में रहने के लिए आए और भोले-भाले ग्राहकों को ठगा। विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर सभी को भास्कर लॉज रूम नंबर 401, रतिफाइट बस स्टेशन के पास, सिकंदराबाद में पकड़ा गया और 25 लाख रुपये बरामद किए गए।



नलगोंडा, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। नकरकल मंडल के चंदपाटला के लोग बुधवार को एक असामान्य कारण से गांव से दूर पेड़ों के नीचे पूरा दिन बिताने के लिए अपने घरों से निकले। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक पूरा गांव वीरान नजर आता था, क्योंकि गांव के बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक हर कोई, उम्र और जाति के बावजूद, सुबह से शाम तक अपने घरों से निकलकर पेड़ों

के नीचे रहता था। यह 21 जनवरी से स्वास्थ्य समस्याओं के कारण गांव में 12 लोगों की मौत के बाद हुआ था। 11 दिन में 12 मौतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तब चंदपाटला के बुजुर्गों ने गांव के केंद्र में एक बैठक की और फैसला किया कि गांव को नकारात्मकता से बचाने के लिए सभी गांवों को एक दिन के लिए अपने घर छोड़ देना चाहिए। लोगों

ने अपने घरों से निकलने से पहले सुबह भेड़ और मुर्ग की बलि भी दी। ग्रामीणों में से एक, पी. सैदुल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं कि ग्रामीणों के अपने घरों से निकलने के बाद सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कोई भी गांव में प्रवेश न करे। उन्होंने कहा कि गांव के बुजुर्गों का फैसला भी ग्रामीणों को आश्चर्य करने और उनके मन से डर को दूर करने के लिए था।

केंद्रीय बजट ने तेलंगाना के लोगों को निराश किया : हरीश राव



हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। केंद्रीय बजट को किसान विरोधी करार देते हुए वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि केंद्र सरकार का वार्षिक बजट कॉरपोरेट समर्थक के पक्ष में है और ऐसा लगता है कि देश कर्ज के जाल में फंस जाएगा। बुधवार को संसद

में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, हरीश राव ने यहां कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है और ऐसा लगता है कि यह राज्य सरकारों के संसाधनों को कमजोर कर रहा

है। सात प्रमुख क्षेत्रों के लिए कोई उचित आवंटन नहीं है। बजट पूरी तरह से कृषि क्षेत्र और प्रगतिशील राज्यों के खिलाफ है। तेलंगाना राज्य पिछले आठ वर्षों से एक रेलवे कोच फैक्ट्री और आदिवासी विश्वविद्यालय की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र बजट में उल्लेख करने में विफल रहा है। इसके अलावा, तेलंगाना में एकल राष्ट्र परियोजना और अन्य प्रावधानों से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है।" हम बजट से पूरी तरह से निराश हैं, जो तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। मंत्री ने कहा कि तेलंगाना को केंद्रीय बजट में एक कच्चा सौदा मिला जो लोगों के लिए एक बड़ी निराशा बन गया है और तेलंगाना राज्य को समर्थन देने के लिए कोई विशेष आश्वासन या आवंटन नहीं किया गया है।

शर्मिला आज

राज्यपाल से मिलेंगी

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। वाईएसआरटीपी की संस्थापक-अध्यक्ष वाईएस शर्मिला आज राजभवन में राज्यपाल तमिलिसाई सौरराजन से मुलाकात करेंगी। बैठक दोपहर 12 बजे होनी है। वह मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नौ साल के शासन की विफलताओं को उजागर करते हुए राज्यपाल को एक प्रतिनिधित्व सौंपेंगी। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद शर्मिला सीधे अपनी पदयात्रा के लिए रवाना होंगी। नरसमपेटा विधानसभा क्षेत्र के चेन्नाराओपेटा मंडल के शंकरम्मा थंडा में दोपहर 3 बजे पदयात्रा फिर से शुरू होगी। गौरतलब है कि वारंगल पुलिस ने शर्मिला को पदयात्रा करने की शर्त अंशुमति दी है। हालांकि वाईएसआरटीपी ने 28 जनवरी से पदयात्रा आयोजित करने के लिए पुलिस से अनुमति मांगी, लेकिन पुलिस ने उसे 2 फरवरी से 18 फरवरी, 2023 तक पदयात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी। पुलिस ने शर्मिला पर यात्रा करने के लिए 15 शर्तें लगाईं। उन्होंने उसे अपनी पदयात्रा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शुरू करने और हर दिन शाम 5 बजे समाप्त करने के लिए कहा। शर्मिला की पदयात्रा अविभाजित वारंगल जिले के शेष सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। पदयात्रा खम्मम जिले के पलेयर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के आयोजन के साथ समाप्त होगी।

सड़क हादसे में मां-बेटे की मौके पर

ही मौत हो गई

नलगोंडा, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। जिले के पेड़ा आदिशेरलापल्ली मंडल के चिलामरी गांव में बुधवार सुबह सड़क दुर्घटना में एक मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जब वे यात्रा कर रहे थे, तब उनके वाहन को एक एसयूवी ने टक्कर मार दी। पीड़ित आंध्र प्रदेश के ओंगोल की गुंजी वेंकयम्मा और उनके बेटे गणेश थे। उनका परिवार करीब 10 साल पहले मंडल के थाटीकल आया था। वे उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए जब वे मोटरसाइकिल पर अपने पैतृक स्थान जा रहे थे, जिसमें विपरीत दिशा से आ रही एसयूवी की चपेट में आने से आग लग गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए देवराकोंडा के क्षेत्रीय अस्पताल में भेज दिया गया है।

सिंगरेनी कोलियरीज ने कोयला परिवहन में रिकॉर्ड बनाया

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने के साथ ही,सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने अपने कोयला उत्पादन को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। जनवरी के दौरान कंपनी ने 68.4 लाख टन कोयले की दुलाई की, जो अब तक का रिकॉर्ड है। मार्च 2016 के दौरान 64.7 लाख टन कोयला शिपमेंट का पिछला रिकॉर्ड हासिल किया गया है। इसी तरह मंगलवार को सर्वाधिक 16.67 लाख घनमीटर ओवरबर्डन हटाया गया। मंगलवार को 14.83 लाख क्यूबिक मीटर ओवरलोडिंग और विभागीय मशीनरी की मदद से 1.84 लाख क्यूबिक मीटर औबो हटाकर यह नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। बुधवार को यहां जारी एक बयान में कंपनी ने बताया कि जनवरी में 39 रेल कारों की औसत दर से 11 क्षेत्रों से कुल 1216 पैलेट कोयले की दुलाई प्रतिदिन की गई। अधिकांश कोयले को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित थर्मल पावर स्टेशनों में ले जाया गया। जनवरी के महीने में सिंगरेनी ने 1186 पैलेटों के उच्चतम कोयला शिपमेंट को पार कर लिया। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एन श्रीधर ने कहा कि अगर कंपनी अगले 60 दिनों तक इसी तरह के प्रदर्शन को बनाए रखती है, तो वह चालू वित्त वर्ष के 700 लाख टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को आसानी से पार कर सकती है।

शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में सरकार प्रयासरत : सत्यवती

मुलुगु, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। आदिवासी कल्याण मंत्री सत्यवती राठी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और गरीब वित्तीय पृष्ठभूमि के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी स्कूलों का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मंत्री ने बुधवार को जिले के गोविंदरावपेट मंडल केंद्र में "मन ओरू-मन बाडी" कार्यक्रम के तहत विकसित मंडल परियोजना प्रारंभिक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत सभी स्कूलों में शौचालय और किचन शेड के निर्माण के साथ-साथ पीने के पानी की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को अच्छा भोजन भी उपलब्ध करा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष कुसुमा जगदीश, जिलाधिकारी एस कृष्ण आदित्य, एसपी गौश आलम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

देश एवं प्रदेश के विकास में उत्तर भारतीय मारवाड़ी समाज का योगदान महत्वपूर्ण : सतीश जाजू

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। समाजसेवी तथा वरिष्ठ भाजपा नेता तथा सतीश कुमार जाजू ने बताया कि देश की आर्थिक एवं विकास के क्षेत्र में मारवाड़ी का महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद यह समाज राजनीतिक में हाशिए पर हैं और इनके निस्वार्थ भाव से किए गए शिक्षा, समाज सेवा, धर्मार्थ एवं सामाजिक कार्यों को भूलकर उन पर मिथ्या आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है। आज यह सच्चाई है कि इन सबके बावजूद भी राजनीतिक हाशिए पर यह समाज है जो कि विचारणीय है आज जो भी उत्तर भारतीय मारवाड़ी समाज सारे भारतवर्ष में फैला हुआ है। उनकी खूबी है कि वह जिस प्रांत में जाते हैं। अपने आप को उसी माहौल में रमा लेते हैं और अपने



अथक मेहनत से उन्नति करते हुए वहां के समाज को भी इससे लाभान्वित करते हैं। आज जब भी कोई आपदा आती है वह सबसे आगे रहकर तन मन धन से अपनी सेवाएं देते हैं और सबसे पहले भारतीय बनकर भामाशाह की भूमिका उस क्षेत्र के लिए निभाते हैं शान्ति से अपना जीवन बिताते हैं और जो भी उद्योग या व्यापार करते हैं उसमें उसी प्रांत के लोगों

की भागीदारी 90% होती हैं, लेकिन इस सबके बावजूद उन पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया आया है जो कि विचारणीय है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी लोगों को जो मिथ्यारोप लगा रहे हैं उन से निवेदन करता हूं कि मारवाड़ी समाज जो कि मानव सेवा ही माधव सेवा के मार्ग पर चलता है और सेवा कार्य में सबसे अग्रणी रहता है चाहे वह गणपति का विशाल जुलूस, बोनालू, मछली दवा वितरण, चिकित्सा, करीनाकाल में सेवा इन सब के अलावा अन्य सेवा में भी उनकी निस्वार्थ सेवा प्रशंसनीय है, इसलिए मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस तरह की सोच और विचार इस वर्ग के लिए ना रखें एवं भाईचारे के साथ मिलजुलकर देश एवं प्रांत के विकास के कार्य करें एवं समाज का बंटवारा ना करें।

बजट में मध्यम वर्ग के लिए कोई खास योजना नहीं : सीए मधुसूदन अग्रवाल

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। नगर के प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट मधुसूदन अग्रवाल ने बजट का विश्लेषण करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यूनियन बजट 2023 को इन्फ्रास्ट्रक्चर और इक्वायटी को बढ़ावा देने का ध्यान में रखकर बनाया गया है एग्रीकल्चर और प्राकृतिक खेती को बजट में प्रथम स्थान पर रखा गया है। आम जनता की अपेक्षा से कम इनकम टैक्स में छूट दी गई है इस बजट में एक और पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम को बढ़ावा दिया गया है तथा दूसरे और एलआईडी की मैच्योरिटी पर टैक्स लगा दिया गया है



एलआईडी की मैच्योरिटी पर उन पॉलिसी पर टैक्स लगाया जिसका 5 लाख से ज्यादा सालाना प्रीमियम होगा। इस बजट में मध्यमवर्गीय परिवार की कुछ इनकम की छूट बढ़ा दी गई है और कुछ ज्यादा आमदनी वालों वालों को टैक्स बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी पर टैक्स कम किया गया है। रेलवे को पिछले वर्ष जितना ही बजट दिया गया है, लेकिन 50 न्यू एस्पॉर्ट बनाने का प्रावधान किया गया है इससे यह अर्थ निकलता है की छोटे शहरों को भी वायु यात्रा से जोड़ा

जाएगा उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा ताकि छोटे शहरों में भी विकास हो सके। इनकम टैक्स में अभी तक अपील कमिशनर पद के अधिकारी ही अपील का काम देखते हैं, अब बजट में उनके निचले अधिकारी ज्वाइंट कमिशनर को अपील देखने का अधिकार होगा इसे इनकम टैक्स के विवाद कम हो जाएंगे। इनकम टैक्स के नए सरल फॉर्म लाने का प्रावधान है। इस तरह के फॉर्म कई बार आए और चले गए। यह देखा होगा कि सरकार कितने सरल फॉर्म लाती है और कितने साल तक चलते हैं साधारणतया यह सब फॉर्म चुनावी वर्ष में आते हैं उसके बाद भ्रामांश काफी अमेंडमेंट्स हो जाते हैं। अभी से पीएनए को कॉमन पहचान पत्र माना जाएगा। इससे यह होगा कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न नहीं



केबीआर में आयोजित गणेश पूजन कार्यक्रम में भाग लेते हुए समाजसेवी गोपाल बल्दवा, राजेंद्र कुमार अग्रवाल, राहुल सिंघल, सुरेश कुमार, राजू, विठ्ठलदास बड़ागंव वाले, विजय कुमार, सुरेंद्र अग्रवाल, अशोक लखोटिया, विनोद व अन्य।

CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

I, SYED JAHANGIR, H.No.4-23-149, Hassan Nagar, Rajendranagar, Hyd-52, T.S, have to Change My Child Name from SYED GORA to SYED SAMEER S/o. SYED JAHANGIR.

सावधान

पाठकों को सूचित किया जाता है कि वर्गीकृत विज्ञापन का प्रतिवादन करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। विज्ञापनदाता ने दावा कर रहे हैं या कह रहे हैं, उन बातों से दैनिक समाचार पत्र (स्वतंत्र वार्ता) का किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है।

बढ़ सकती हैं अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें

14 फरवरी को कोर्ट सुना सकता है फैसला



वाराणसी, 1 फरवरी (एजेंसियां)। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी केस में हेट स्पीच मामले को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया था. इस मामले में कई सुनवाई के बाद बहस पूरी हो गई. जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. यदि ये फैसला वादी पक्ष के हक में आता है तो ओवैसी व सपा सुप्रीमो पर एफआईआर दर्ज होने के साथ 5 साल तक की सजा भी हो

मरते दम तक तेरा साथ न छोड़ेंगे!
बॉयफ्रेंड ने किया सुसाइड तो
गलीफ्रेंड ने भी खा लिया जहर

मथुरा, 1 फरवरी (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के मथुरा के मांट थाना इलाके के मांट मूला से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जिसमें एक युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी, तो दूसरी तरफ एक लड़की ने जहर खा लिया. जिसके चलते उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. हालांकि कुछ लोगों के इस घटना को लेकर कई तरह के मतलब भी निकाले जा रहे हैं और इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. हालांकि जब इस बात की सूचना पुलिस को पता लगी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं लड़की को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. मथुरा के मांट थाना क्षेत्र के मांट मूला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब युवक का शव फांसी पर लटका हुआ मिला, मृतक युवक का नाम सत्यवान उर्फ छंगा उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है. उसने गांव के ट्यूबवेल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वहीं दूसरी तरफ 22 वर्षीय युवती द्वारा जहर खाकर जान देने का मामला भी प्रकाश में आया है. जिस को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है वही देखा जाए तो दोनों घटनाओं के स्थानीय लोग प्रेम प्रसंग से जोड़ रहे हैं, और आपस में कई चर्चां कर रहे हैं,

‘नीतीश की राजनीति ‘यूज एंड थ्रो’ की’

उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बोले चिराग पासवान

पटना, 1 फरवरी (एजेंसियां)। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दावे के लिए उन पर चुटकी ली कि वह करते दम तक भाजपा के साथ दोबारा हाथ नहीं मिलाएंगे. चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश की कार्य संस्कृति में इस्तेमाल करे और छोड़ो की प्रवृत्ति शामिल है और वह पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं. चिराग पासवान ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने सत्ता की चाह में बार-बार राजनीतिक दलों और लोगों का इस्तेमाल किया है और पहले भी अपने

हरियाणा सहित कई राज्यों में एक बार फिर सेक्स रेशियो 900 से नीचे

चंडीगढ़, 1 फरवरी (एजेंसियां)। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 की हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एच एम आई एस) रिपोर्ट में देश में जन्म के समय के लिंगानुपात के चौकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेटी की तुलना में बेटियों के जन्म की औसत संख्या साल 2013-14 से लगातार बढ़ने के बाद अब साल 2021-22 में कम हो गया है. देश में साल 2020-21 में 1000 बेटों के मुकाबले 937 बेटियों का जन्म हुआ था. वहीं यह संख्या साल 2021-22 में घटकर 934 हो गई. इसके अलावा भारत के आठ बड़े राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में भी जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है.

प्रेमिका के तीन साल की बेटी के साथ दरिंदगी की हद पार, दुष्कर्म के बाद की हत्या

बेंगलुरु, 1 फरवरी (एजेंसियां)। कर्नाटक के बेंगलुरु से मानवता को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है। दरअसल, यहां एक व्यक्ति ने तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आरोपी बच्ची को जानता था। दरअसल, पीड़िता की मां और आरोपी के बीच पिछले एक साल से प्रेम संबंध था। पीड़िता अपनी मां के साथ अकेली रहती थी। पीड़िता की मां एक कारखाने में काम करती थी। यह घटना कर्नाटक के पश्चिमी हिस्से में कामाक्षीपाल्य

प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने के आरोप में रूसी महिला गिरफ्तार



पणजी, 1 फरवरी (एजेंसियां)। गोवा पुलिस ने मंगलवार को एक 38 वर्षीय रूसी महिला पर्यटक को प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि दक्षिण गोवा में कोलवा पुलिस ने एक रूसी महिला को गिरफ्तार किया है। अधिकारी के



हरियाणा में फिर छोरियों पर संकट इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में हरियाणा के लिंगानुपात में एक बार फिर बड़ा अंतर पाया गया है. हरियाणा में लिंगानुपात 901 है. यानी इस राज्य में एक साल में प्रत्येक 1000 बेटों पर 901 बेटियों ने जन्म लिया है. जो कि राष्ट्रीय औसत यानी 940 से



कम है. इससे पहले साल 2001 में लिंगानुपात में इतना अंतर दर्ज किया गया था. उस वर्ष प्रति 1000 लड़कों पर 861 लड़कियां ने जन्म लिया था. **इन जिलों में 6 साल बाद जन्म दर में गिरावट**

वहीं इस राज्य के पांच जिले ऐसे हैं, जहां

दिल्ली एचसी ने यौन उत्पीड़न की शिकार

नाबालिग को 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी



नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न का शिकार हुई 13 वर्षीय गर्भवती किशोरी को 25 सप्ताह का गर्भ गिराने की मंगलवार को अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि सफरदरजंग अस्पताल के चिकित्सकों का दल बुधवार को गर्भपात के लिए आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया करेगा. किशोरी और उसकी मां ने कहा कि पीड़िता गर्भपात कराना चाहती है, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया. न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, “इस अदालत का मानना ​​है कि नाबालिग लड़की के जीवन, उसकी शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उसके हित में होगा कि गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाए." अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, जिसके मद्देनजर गर्भपात का खर्च केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वहन करेगा.

पिछले 6 साल बाद लड़के लड़कियों के जन्म दर में इतनी गिरावट दर्ज की गई है. आंकड़ों के अनुसार हिसार में 1000 लड़कों पर 904 बेटियों ने जन्म लिया है. वहीं करनाल में लिंगानुपात 903, कुरुक्षेत्र में 893, फरीदाबाद में 892 और रेवाड़ी में लिंगानुपात 883 है. जाहिर है इतने सालों बाद एक बार फिर लड़कियों के जन्म दर की संख्या औसत के कम होना मनोहर लाल खट्टर की सरकार के लिए खतरे की घंटी है. अधिकारिक डेटा की मानें तो साल 2016-17 में हिसार, करनाल, फरीदाबाद, झज्जर, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में जन्म के समय लिंगानुपात अभी के आंकड़े से भी नीचे चले गए थे. लेकिन 16-17 के बाद साल 2021 तक इस आंकड़ों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई

भीमा कोरेगांव मामला : सुप्रीम कोर्ट में वरनन गोंजाल्विस अरुण फरेरा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी वरनन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे मामले की सुनवाई नहीं टाली जाएगी. इससे पहले 18 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आरोप एजेंसी की विशेष अदालत से आरोपी वरनन गोंजाल्विस पर तीन महीने के भीतर आरोप तय करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने

मुखयल में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, मां घायल, बेटे की मौत, 12 लोगों पर केस

सोनीपत, 1 फरवरी (एजेंसियां)। हरियाणा के सोनीपत के गांव बख्तावरपुर में जमीनी विवाद के चलते दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया. एक गुट का आरोप है कि दूसरे गुट के 10 से 12 लोगों ने उनके घर में घुसकर तेजधार हथियार और बंदूकों से हमला किया, जिसमें घर में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल है.शिकायत के बाद मृतिं थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

थी. हालांकि कुरुक्षेत्र में साल 2017-18 में लिंगानुपात 924 था, जिसमें साल दर साल सुधार ही हुआ है. लेकिन पिछले साल यानी 2022 में अचानक यह घटक 893 पर पहुंच गया.

बेटी बचाओ के शुभारंभ के बाद बढ़ा था सेक्स रेशियो

साल 2015 में हरियाणा में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी. उस वक्त प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 871 था, जिसका मतलब है कि 1000 लड़कों पर 871 लड़कियां, जो इस अभियान के बाद साल 2019 में बढ़कर एक हजार लड़कों पर 923 लड़कियां हो गया है. इस अभियान का असर ये हुआ कि लिंगानुपात में 52 अंकों की वृद्धि हुई.

पति के खिलाफ दर्ज कराया 377 का केस

पत्नी बोली- अश्लील फिल्म दिखाकर करता है...

भोपाल, 1 फरवरी (एजेंसियां)। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जैसे-जैसे आधुनिक होता जा रहा है. वैसे-वैसे यहाँ महिलाओं के खिलाफ नए-नए तरीके के अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला खजराना थाना क्षेत्र में सामने आया, जिसमें पत्नी ने अपने पति के खिलाफ अश्लील फिल्म दिखाकर अप्राकृतिक कृत्य करना करने की शिकायत की है. शिकायत में कहा गया है कि उसका पति अश्लील फिल्म दिखाकर उसी तरह से संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है,

साथ ही जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध भी बनाता है. ऐसा न करने पर वो मारपीट करता है. पुलिस ने मामले में सज़ान लेते हुए केस दर्ज कर लिया और आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया है. आजादनगर थाने के टीआई इंद्रेश त्रिपाठी ने बताया कि आजाद नगर की एक महिला है जिसका मायका उज्जैन जिले के उन्हेल में है. उसके साथ उसका पति दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और ब्त्तु फिल्म दिखाकर अननैचुरल सेक्स करता है. उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी का नाम फैजल पिता याकूब खान है.

बीजेपी नेता की थार ने 2 युवको को कुचला, मचा हंगामा

मेरठ, 1 फरवरी (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी नेता की थार से कुचलकर दो लड़कों की मौत हो गई है। लोगों के आक्रोश के पश्चात बीजेपी नेता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लोगों का आरोप है कि जानबूझकर लड़कों को टक्कर मारी गई है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए दोनों लड़कों के शवों का संगीनों के साए में अंत्येष्टि की गई। दुष्टटना परीक्षितगढ़ के खजूरी गांव में हुई। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद भी हो गई है। कहा जा रहा है कि बिजनौर के बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी की थार ने दोनों लड़कों को कुचला।

सरकारी सेंटर के गेहूं में मिलाई जा रही है रेत

किंवटल गेहूं का भंडारण किया गया है। इन्हें बोरियों में पैक करके अन्य जिले में भेजा जाएगा। लेकिन, पैकिंग के पहले साइलो में किए गए कारनामों का वीडियो सामने आया है। गेहूं के वजन को बढ़ाने के लिए गेहूं में रेत एवं कंक्रीट मिलाया जा रहा है। इस के चलते वहां उपस्थित किसी ने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया। फिर उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि जिस ट्रैक्टर से रेत लाकर गेहूं में मिलाया जा रहा है, वह ट्रैक्टर भी मोके पर उपस्थित है। वीडियो सामने आते ही प्रशासन के होश उड़ गए हैं। वही मामले में साइलो सेंटर के शाखा

प्रबंधक ज्योति प्रसाद ने बताया, रंगेहूं में रेत मीलाना और वीडियो वायरल करना किसी का षड्यंत्र हो सकता है। हमारे यहां ऐसा कोई काम चल नहीं हुआ है। पूरा काम एपिगो के आधार किया जा रहा है।र वहीं, एफसीआई को परिदान का कहना है कि बीते 3 महीनों से यहां काम चल रहा है। पैकिंग के चलते अंत में धूल बचती है, हो सकता है कि उसे डाल दिया हो। वहीं, तहसीलदार अभय राज सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए वीडियो मैंने देखा है। संबंधित कर्मचारी को भेतवर तहकीकात कराई जा रही हैं। तहकीकात के पश्चात ही कुछ कहा जाएगा।

शिवराज बोले- फसल बीमा का प्रीमियम ही नहीं भरा, नाथ बोले

भोपाल, 1 फरवरी (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से फिर एक सवाल पूछा। बुधवार को सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में नई फसल बीमा योजना लाने का वादा किया, जबकि पुरानी का ही प्रीमियम नहीं भरा गया। वहीं, कमलनाथ ने पलटवार कर कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवज की तीसरी किश्त आज तक किसानों को क्यों नहीं मिली? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं कमलनाथ जी से रोज सवाल पूछता हूं, लेकिन मैं हरि भजन की बात करता हूं, वह कपास ओटने लगते हैं। अब तक एक भी सवाल का जवाब उन्होंने जनता को नहीं दिया। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह झुट्ठ बोलते हैं। पहले उन्होंने जो झुठे वादे किए वह पूरे हुए नहीं, अब

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे : ओम प्रकाश राजभर



बलिया, 1 फरवरी (एजेंसियां)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को कहा कि वह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में बृहन्सुंबई नगर निगम (बीएमसी) का चुनाव लड़ेंगे। राजभर ने बुधवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि उन्होंने दो दिन पहले मुंबई में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि ठाकरे ने बीएमसी चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ने पर सहमति जताई है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में ठाकरे की शिवसेना के साथ गठजोड़ करेंगे, राजभर ने कहा



कई वादे फिर करने लगते हैं इसलिए सच्चाई जनता के सामने होनी चाहिए। जो किसान प्रथक रहना चाहेंगे उन्हें फहरया था। उसी में से आज मेरा फिर एक सवाल है, उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा था कांग्रेस नवीन फसल बीमा



योजना लाएगी। फसल बीमा की इकाई खेत रहेगा और फसल बीमा योजना में, जो किसान प्रथक रहना चाहेंगे उन्हें अनुमति रहेगी बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को बीमा पॉलिसी एवं प्रीमियम की राशि देना सुनिश्चित किया जाएगा।

रामचरितमानस मामले में बयानबाजी जारी कथावाचक जया किशोरी ने कही ये बात

इंदौर, 1 फरवरी (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्या के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है. रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की खबरें भी सामने आ रही हैं. इन सबके बीच कथावाचक जया किशोरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. मध्य प्रदेश के नागदा शहर में जया किशोरी की भागवत कथा का आयोजन बुधवार से हुआ। इसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है. जया किशोरी ने इसके लिए रामचरितमानस की चौपाई का सहारा लिया है. इसका अर्थ होता है, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली



हैं, मनुष्य को प्रसन्न करने वाली हैं, पापों को नाश करने वाली हैं. राम कथा कलयुग रूपी सांप आपके लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रगत करने वाली अरणी महारानी होती है, लकड़ी की जिसको रागड़ के आग प्रकट किया जाता है. दरअसल, रामचरितमानस की

महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने का जुगाड़ करने में जुटे अफसरों के सूटे पसीने

शिमला, 1 फरवरी (एजेंसियां)। कांग्रेस सरकार की तीसरी गारंटी के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500-1500 रुपये देने का जुगाड़ करने में अफसरों के पसीने छूटने लगे हैं। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से लेकर सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के कार्यालय में इस बावत बैठकों का दौर चला। मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लेकर चार फरवरी को फिर कैबिनेट उप समिति की

बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। बीते सप्ताह हुई कमेटी की पहली बैठक में करीब 14 लाख महिलाओं को योजना के लिए पात्र माना गया है। प्रदेश में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना बनाई गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पहली ही कैबिनेट बैठक में इस योजना को लाग

नाथ ने भी शिव पर दागा सवाल

कमलनाथ ने पलटवार कर कहा कि लोकतंत्र की ध्वजियां उड़ाकर गद्दी पर बैठे शिवराज सिंह चौहान जब कागज की पर्चियां लेकर मुझसे सवाल करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता हंसती है कि देखो, 18 साल से कुर्सी पर बैठा मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से भाग रहा है। नाथ ने कहा कि शिवराज जी आप मध्य प्रदेश की जनता के सवालों से भाग नहीं सकते, आपने दृष्टि पत्र में घोषणा की थी कि किसी भी अप्रत्याशित नुकसान पर किसानों को अविर्लंब मुआवजा देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। क्या आप ने किसानों को अविर्लंब मुआवजा दिया? 2020 में कीट व्याधि और बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की तीसरी किस्त आज तक किसानों को क्यों नहीं मिली?

जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख बोले तकनीकी में आत्मनिर्भरता जरूरी, आउटसोर्स नहीं की जा सकती राष्ट्र की सुरक्षा



नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बुधवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध सूचना जंग की क्षमता, आर्थिक तंत्र के हथियारीकरण, संचार अतिरेक, अंतरिक्ष आधारित प्रणाली जैसे कई अन्य पहलुओं को लेकर सामने लेकर आया है। जनरल

मां की दोस्त ने नाबालिग को बनाया शराब और अश्लील वीडियो का लती

3 साल तक करती रही यौन शोषण

मुंबई, 1 फरवरी (एजेंसियां)। महाराष्ट्र के कल्याण से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 32 साल की महिला ने 14 साल के बच्चे के साथ 3 साल से ज्यादा समय तक सेक्सुअल हैरैसमेंट किया. इसके अलावा लड़के को शराबी भी बना दिया. मामले की जानकारी तब हुई जब लड़के की मां ने उसका फोन चेक किया तो उन्हें अश्लील वीडियो देखने को मिले. जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम कीर्ती घायवते है और वह नासिक में रहती है. कीर्ति लड़के की मां की मित्र थी. कोलसेवाड़ी पुलिस ने सोमवार को बताया कि घायवते के

खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4, 8 और 12 और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की . इसके साथ ही बताया कि कीर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कल्याण में और नासिक में अपने घर पर भी कई बार लड़के के साथ सेक्सुअल हैरैसमेंट किया था. लड़के की मां ने बताया कि कीर्ति उनकी वीडियो फ्रेंड है. उन्होंने बताया, बच्चों को छुट्टियों के लिए घायवते उसे अपने साथ नासिक ले जाती थी और वहां भी उसके साथ मारपीट करती थी. मां ने बताया कि उनका बेटे को आरोपी ने शराब पीने और ऑनलाइन अश्लील वीडियो देखने के लिए प्रभावित किया था.

स्वतंत्र वास्तु

गुरुवार, 2 फरवरी- 2023

विवेक खो चुके तंगदिल नेता

अपने देश में कुछ नेता कितने तंगदिल हो गए हैं कि उनका विवेक ही काम करना बंद कर चुका है। वोट की खातिर ऐसे नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। यहाँ तक कि जनाधार बढ़ाने के लिए वे समाज में जहर घोलने से भी नहीं चूकने वाले हैं। इसका परिणाम कितना घातक हो सकता है वे इसका भी परवाह नहीं करते। उत्तर प्रदेश में ओबीसी नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आजकल समाजवादी पार्टी में हैं। इसके पहले वे बसपा व बाजपा सरकार में मंत्री तक रह चुके हैं। इन दिनों इन्हें ओबीसी वोट की चिंता बहुत सता रही है। इसलिए अपनी बदजुबानी से भी परहेज नहीं करते। उनके भडकाऊ भाषण की वजह से ओबीसी ने एक महासभा आयोजित कर यूपी की राजधानी लखनऊ में रामचरित मानस के पन्ने जलाने का कुकृत्य किया है। इसमें समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। अब इस मामले में दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कुछ लोग तो गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। जाहिर है ऐसे लोगों के इस कृत्य के पीछे की मंशा छिपी नहीं है। काफ़ी समय से मानस की कुछ चौपाइयों को लेकर सवाल खड़े कर उन्हे समाज के हाशिये के लोगों के प्रति अपमान के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। उन चौपाइयों की अपने-अपने तरीके से व्याख्याएं भी हो रही हैं, लेकिन उनके आधार पर हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र पूरे रामचरित मानस का अनादर करने का प्रयास किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। मानस के सुंदरकांड की एक चौपाई में ‘नारी’ और ‘शूद्र’ को लेकर अपमानजनक भाव ध्वनित होता है। उसी को आधार बना कर इन दिनों हिंदू समाज के कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने के सिवाक़ीकित सोच पैदा की जा रही है। अब ऐसी समझ पर तरस आने के राजनीतिज्ञों का एक या कुछ चौपाइयों के आधार पर जन-जन में स्थापित रामचरित मानस की प्रतिष्ठा को ही मटियामेट करने का कदम उठा लिया गया है। देखा जाए तो भारतीय समाज में किसी रचना में व्यक्त विचारों से असहमति की बहुत पुरानी परंपरा रही है। वेदों से लेकर सिद्धांतों की जहाँ कुछ लोग सही ठहराते हैं तो काफ़ी लोग आलोचना भी करते दिखाई देते हैं। वेदों से अनेक दार्शनिक पद्धतियां विकसित हुई हैं। विचारों का संघर्ष कोई बुरी बात नहीं, मगर जब इस तरह किसी कृति को जला कर उसका विरोध किया जाता है, तो उससे ऐसा करने वालों की तंगनजरी जाहिर होती है। ऐसे में तुलसीदास रचित रामचरितमानस भी आलोचनाओं से परे नहीं माना जा सकता। इतिहास में दर्ज है कि खुद तुलसी को अपने जीते-जी भी अनेक विद्वानों के वैचारिक प्रहार झेलने पड़े थे। ऐसे में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाए तो बेहतर होता है। न कि उससे संबंधित कृति हो ही जला दिया जाए। इससे यह भी जाहिर हुआ है कि जिन लोगों ने मानस की प्रतियों का दहन किया, उनके पास विरोध की वैचारिक क्षमता खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों का विरोध समाज में कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ता, उल्टा यही संदेश पुख्ता होता है कि ऐसे लोगों को नेतृत्व देना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन समाज को बांट कर अपनी राजनीति चमकाने वाले इतनी महीन रेखा को कहां पहचान पाते हैं। समाजवादी पार्टी का जनाधार एक खास जाति-वर्ग तक सिमटा हुआ है, इस तरह की बयानबाजी से वह दलित वर्ग को लुभाने का प्रयास करना चाहती है। ऐसे लोगों को सोच मजबूत करना होगा कि मानस केवल एक साहित्यिक कृति नहीं है। अब वह लोक आस्था का ग्रंथ है। मांगलिक कार्यों में लोग श्रद्धा के साथ उसका अखंड पाठ रखते हैं। बहुत सारे लोग उसकी पूजा करते हैं। लोक में जितनी प्रतिष्ठा मानस की है, उतनी शायद ही किसी और ग्रंथ की होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा रामचरित मानस की प्रतियों के दहन से लोक मानस आहत हुआ है। मानस का निरादर करके समाजवादी पार्टी का जनाधार विस्तृत तो हो नहीं पाएगा उल्टे कमजोर अवस्थ हो जाएगा। जिस वरिष्ठ नेता ने मानस के पन्ने जलाए, वे पिछले विधानसभा चुनाव में ही बाजपा छोड़ कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इतनी जल्दी वे अपनी बौद्धिक परंपराओं और लोक आस्था के महत्त्व को भूल जाएंगे, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा।

तोताराम जी के अजीब शौक



तोताराम जी तीन चीजों के बड़े शौकीन हैं। रूमाइल, मोबाइल और घड़ी। एक दिन हमने तोताराम जी से कहा-‘भैया तोताराम जी आप हमेशा अपने पास रूमाइल, मोबाइल और घड़ी रखते हैं। वर्तमान युग में इन तीनों चीजों की जरूरत नहीं है। हमारी आपकी यह सलाह है कि आप हमेशा अपनी जेब में एक नेता रखिए। नेता बड़े काम की चीज हैं। हमने कहा-‘आप अपने भीतर का ईश्वर देखने की कोशिश करें। रूमाइल, मोबाइल और घड़ी भरोसे के नाम नहीं हैं।आज के युग में नेता आदमी का भरोसा है, विश्वास है, रोजगार है। जेब में नेता रखकर आप समाज की मुख्यधारा में लौट सकते हैं। मनु,वचन और कर्म से आप मोबाइल, घड़ी और रूमाइल के प्रति अनुराग नहीं, नेताजी से अनुराग रखिए। नेता चमत्कारी है, आज के युग की कामयाबी है।इसलिए जेब में एकाध नेता को पर्सिए, नेता जी से मेलजोल बढ़ाइए। फिर चाहे किसी को भी जमीन जायदाद का ठेका दिलवाइए और ठाठ-बाट से बैठे बैठे खाइए। रूमाइल तो सिर्फ़ हाथ-मुंह पौछने के काम आता है लेकिन नेता आपकी जिंदगी के सभी आंसू पोंछ सकता है। घड़ी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइल बता सकती है लेकिन नेता आपका बेड टाइम गुड टाइम में बदल सकता है। मोबाइल से आप दुनिया की खबरों से अपडेट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, विडियो-सिडियो देख सकते हैं लेकिन नेता जिंदगी का असली आईना होता है। मोबाइल आपका

बजट बिगाड़ता है लेकिन नेता आपको पीढ़ियों तक का बजट संवार सकता है। आज पाकिस्तान में प्याज ढाई सौ रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहाँ बिजली नहीं है, आटे-दाल-चावल,रसोई गैस, डीजल पेट्रोल तक की किल्लत हो गई है, पता है आपको कुछ, उसकी ये हालत क्यों हो गई है, क्योंकि उसकी पेंट की जेब में कोई ढंग का नेता नहीं है। देश-समाज की अर्थव्यवस्था के गजब के स्टेरि नेता को जेब में रखना आज की असली गणित, कैमेस्ट्री और मनोविज्ञान है। तुम 'नेताजी के मनोविज्ञान' को समझो। अपने मनोविचार(मोबाइल, रूमाइल, घड़ी) के इलाज की ओर ध्यान दो। इससे तुम्हारा इनकम टैक्स बचेगा। तुम्हारा ट्रांसफर तुम्हारी इच्छानुकूल हो सकेगा। तुम ठेके के माल में माल कमा पाओगे। महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी तुम्हें ईंडी-सीडी के जाल में चेंप सकती है। तुम्हारे जेब में एकाध नेता होगा तो ये पुलिस बुलिस तुम्हारे इशारों पर ऐसे नाचेंगी, जैसे मदारी के समक्ष भालू और बंदरिया नाचते हैं। नचाने का हुनर तुममें नेता ही क्रिएट कर सकता है। पॉकेट में नेता को दबाकर रखोगे तो तुम्हारे परिवार का सारा अर्थशास्त्र और भूगोल ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास गाड़ियां होंगी, नौकर-चाकर होंगे, धन-दौलत होगी। एक अदद नेता तुम्हारे राजकोषीय घाटे को मुनाफे में बदल सकती है। बस तुम तो कहीं से जाकर एकाध नेता अपनी जेब में खींच लो। तुम्हें इस काल-कलियुग में एक नेता की जरूरत पग-पग पड़ेगी। तुम पाकिस्तान से और श्रीलंका से प्रेरणा क्यों नहीं लेते ? श्रीलंका की दयनीय हालत आज नेताओं के कारण ही तो है।

तुलसीदास के बारे में भ्रम और दुष्प्रचार

शिवानंद मिश्रा तुलसीदास ने अपने जन्मस्थान के विषय में रामचरितमानस के आरम्भ में ही बहुत स्पष्ट निर्देश किया है। विपरीत पदार्थों की सूची में 2 जोड़े हैं- काशी-मग सुरसरि-क्रमनाशा। तुलसीदास जैसा सन्त जो इसके तुरत बाद असन्तों की वन्दना कर रहा है, कभी भी मगध की एक क्षेत्र के रूप में निन्दा नहीं करेगा यह पुराने शाहाबाद (उसके बाद भोजपुर, अभी बक्सर जिला) के राजापुर गांव के थे जहां उनके वंशज अभी भी पर तैमान हैं। इस गांव के निकट कर्मनाशा नाम एक छोटी सी नदी है और वहीं के लोग इसका नदी के रूप में उल्लेख कर सकते हैं। इसी क्षेत्र के लिये काशी पश्चिम और मगध उत्तर है और इस अर्थ में विपरीत हैं। तुलसीदास जी की १०वीं पीढ़ी में पण्डित रामगुलाम द्विवेदी संस्कृत के विख्यात विद्वान थे, पर तुलसी परम्परा में ही उन्होंने केवल लोकभाषा भोजपुरी में ही लिखा, मुख्यतः सामाजिक सुधार के लिये कई नाटक और कवितायें। उनके पौत्र जगदीश द्विवेदी १९६३ में ग्राम (आ के निकट पैग) में ग्रामसेवक थे, उनके पास तुलसीदास की वंशावली थी। उनके पास ग्रियर्सन और बिहार नागरी प्रचारिणी सभा, आरा से प्रकाशित शिवनन्दन सहाय लिखित तुलसीदास की जीवनी भी थी। 1915 की यह पुस्तक राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना द्वारा पुनः प्रकाशित हुयी है, 1990 में। मेजर ग्रियर्सन 1858 में कुंवर सिंह के विद्रोह क्षेत्रों में व्यापक नरसंहार करने वालों में से थे, जिसके बाद इस क्षेत्र के निवासियों को मारिशस, फिजी, गुयाना आदि मजदूर या गुलाम बना कर भेजा गया। उनको गिरमिटिया (ऐग्रीमेण्ट वाले) मजदूर कहते थे पर वे भारत नहीं लौट सकते थे, अतः गुलाम ही थे। भारत से बाहर जाते समय भी आरा से आजमगढ़ तक के लोग तुलसीदास की रचनाओं रामचरितमानस और हनुमान चालीसा ही ले गये जो उनकी आत्मिक रक्षा का आधार बना। इससे ग्रियर्सन आदि अँग्रेजों को बहुत चिढ़ हुयी और उन्होंने तुलसीदास को ही भोजपुरी क्षेत्र से सुदूर पश्चिम बान्दा जिले में खिसका दिया। अपने दीर्घ

तुलसीदास की मूर्ति,आरा,उत्तर प्रदेश

जनजातीय मान्यताओं की प्रतीक सिरासीता धाम

अशोक “प्रवृद्ध” महाप्रलय के पश्चात आदिवासी समुदाय की उत्पति की कथा झारखण्ड प्रान्त के गुमला जिलानर्गत डुमरी प्रखण्ड के आकाशी ग्राम अवस्थित सिरासीता नाले से जुड़ी हुई है। सिरासिता नाले को ककड़ोलता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जब-जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप में वृद्धि हुई है, तब-तब पृथ्वी पर प्रलय हुआ है। और उस प्रलय के बाद आदिवासी सरना धर्मावलंबियों का झारखण्ड के गुमला जिला के डुमरी प्रखण्ड के आकासी ग्राम अवस्थित इस धार्मिक स्थल सिरासिता नाले ककड़ोलता से हुई है। अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति यहीं हुई है। नदियों, बूक, बुकलेट्स और जंगल से धिरे झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सीमा पर स्थित इस स्थल के पूर्वी सीमा में गुमला जिला का चैनपुर प्रखण्ड, उत्तर सीमा में लातेहार जिला पूर्ववर्ती पलामू का महुआडांड प्रखण्ड और दक्षिण-पश्चिम में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा है। झारखण्ड की राजधानी राँची से 175 किलोमीटर और गुमला जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर एक ऊँची पहाड़ी के तले सिरासीता नाला नामक स्थल आदिवासी समाज की आस्था और विश्वास से जुड़ा है। कहा जाता है कि 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर इसका मुख्य स्रोत है। परन्तु पहाड़ी के नीचे अवस्थित आदिवासी समाज की आस्था और विश्वास से जुड़े इस स्थल पर प्रतिवर्ष फरवरी महीने के प्रथम गुरुवार को सामूहिक धार्मिक पूजा-अर्चना सह मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 2023 में फरवरी का वह पहला गुरुवार 2 फरवरी को पड़ रहा है। 2 फरवरी को यहाँ सिरासीता, नाले के पूजन के लिए स्थानीय, धार्मिक और प्रशासनिक स्तर पर विशेष तैयारी की जा रही

१२६ वर्ष के जीवन में तुलसीदास बान्दा के १०० किमी. निकट भी कभी नहीं गये थे। उनसे सम्पर्क करने वाले रहीम और मीराबाई ने भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है कि वे बान्दा के आसपास भी कभी रहे हों। ग्रियर्सन ने उनको बान्दा जिले का सिद्ध करने के लिये केवल एक ही प्रमाण दिया है कि उनकी रचना अवधी में है। अवधी और भोजपुरी में बहुत कम अन्तर है, केवल २-४ शब्द ही ऐसे हैं जिनका प्रयोग भोजपुरी में ही होता है। तुलसीदास ने रउआ (आप), राउर (आपका) बाटे (वर्तते) आदि का प्रयोग प्रायः किया है जिनका प्रयोग केवल भोजपुरी में ही होता है।

बाद के कई संस्करणों में इन विशेष शब्दों को यथासम्भव बदलने की भी चेष्टा हुयी है”जो राउर अनुशासन पावौ, कन्दुक इव ब्रह्मपाण्ड उठावौ”को ‘जो अनुशासन पावौ.....’ आदि किया गया जहां छन्द को रखा जा सके। पर सभी स्थानों पर यह नहीं हो पाया। तुलसीदास प्रायः पूरे जीवन काशी के असी घाट पर रहे, वहां की लोकभाषा भोजपुरी ही है, वरन् काशी ही भोजपुरी भाषा या सरयूपारीण ब्राह्मणों का केन्द्रस्थल है, उसके चारों तरफ अग्निरूप अष्टर्यूत शिव के 8 नगर थे, केन्द्र के काशी को मिलाकर इनको नवपुरिया भी कहा जाता है।

तुलसीदास की सभी जीवनि्यों में इनको सरयूपारीण कहा गया है। यहां तक कि रामचन्द्र शुक्ल ने भी काशी और अपने जिला बलिया (काशी का पड़ोसी) के बदले आरा (शाहाबाद) को ही आदर्श भोजपुरी का क्षेत्र कहा है (उनका हिन्दी साहित्य का इतिहास)। इसका कोई आधार नहीं है, काशी-बलिया-आरा और गोरखपुर देवरिया की भी वही भाषा है केवल १३ कोस पर बानी बदले के अनुसार कुछ शब्दों की शैली बदल गयी है। इसका एकमात्र कारण लगता है कि काशी में ही तुलसीदास रहते थे, कहीं उनकी भाषा भोजपुरी न हो जाये। शिवनन्दन सहाय ने बान्दा जिला में जन्मभूमि होने का एक हास्यास्पद प्रमाण दिया है। बान्दा जिले में जन्मस्थान बनाने का एक ही कारण था कि उनको आरा-आजमगढ़ क्षेत्र से दूर किया जाय और

संयोग से वहां भी राजापुर नामक गांव मिल गया। खोजने पर इस नाम के गांव महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात में भी मिल सकते हैं पर बान्दा से ग्रियर्सन का काम चल गया। ग्रियर्सन को बान्दा के राजापुर में1880 में 2 बूढ़ी स्त्रियां मिलीं थी जिन्होंने कहा कि तुलसीदास का जन्म इसी गांव में हुआ था। कोई पुरुष नहीं मिला। क्या वे स्त्रियां इतनी बूढ़ी थीं (प्रायः 500 वर्ष की) कि उनके सामने तुलसीदास का प्रसव हुआ था? तुलसीदास के परम मित्र रहीम अकबर के दरबारी और कृष्णभक्त कवि थे। उनके पिता बैरम खान ने १३ वर्ष के अकबर को राजा बनवाया था, वह स्वयं भी बन सकता था पर हुमायूँ की स्वामी भक्ति के कारण उसने अकबर को ही राजा बनाया। तथापि उसके भविष्य में राजा बनने के डर से बैरम की हत्या करवा कर उसकी पत्नी को अपने हरम में डाल भेजा था तो उनकी प्रशंसा में एक पंक्ति लिखी थी- सुरतिय नरतिय नागतिय, सब चाहति अस होय (अर्थात सभी मातायें रहीम जैसा धर्मात्मा पुत्र चाहती हैं)। रहीम ने दूसरी पंक्ति जोड़कर इसे तुलसीदास की प्रशंसा बना दी- गोद लिये हुलसी फिरे, तुलसी से सुत होय। अर्थात ऐसे पुत्र को गोद लेकर प्रसन्नता से माता फिरती है। यही हुलसी का अर्थ है प्रसन्न, पर इस विख्यात पंक्ति के कारण तुलसीदास की माता का नाम हुलसी कर दिया गया है। इसी प्रकार रामचरितमानस के मंगलाचरण में

भगवान राम की परब्रह्म रूप में स्तुति है, कि उनकी माया के कारण मिथ्या जगत् भी सत्य जैसा दीखता है, जैसे रस्सी भी सांप जैसी दीखती है। तुलसीदास की यह ज्ञान दृष्टि बेकार गयी-इसका अर्थ यह लगाया कि वे पत्नी से मिलने के लिये इतने बेचैन थे कि छत से एक सांप लटक रहा था उसे रस्सी समझ कर उसी को पकड़कर चढ़ गये। सांप को रस्सी समझने का भ्रम हो सकता है, जबतक वह दूर है। पर उसे रस्सी की तरह पकड़कर नहीं चढ़ा जा सकता है। सांप न तो उतना लम्हा होगा, न उसकी पकड़ दीवाल पर उतनी मजबूत होगी, न वैसी चिकनी चीज को पकड़ा जा सकता है। सबसे पहले तो वह काट लेगा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस की एक साथ बात करें तो दोनों में कवि श्री राम की कथा ही कह रहे होते हैं। जैसे ही इन्होंने राम की कथा को आम जन तक पहुँचाने का प्रयास किया, वैसे ही इनका खुद का नाम भी अमर हो गया।

अब अगर चाहें भी तो रामायण कहते ही वाल्मीकि या रामचरितमानस कहते ही तुलसीदास याद न आएँ ये असंभव है। ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। अच्छे ढंग से लिखने के बदले, अपनी मर्जी से तौड़ने-मरोड़ने, उसमें कहीं महाभारत तो कहीं दूसरी अनसुनी कहानियां घुसेड़ने वाले आज कल के लेखक भी इसके नाम पर अच्छी खासी प्रसिद्धि (और मुद्रा) बटोर ले जाते हैं। जहाँ नतीजे ऐसे साफ़, उदाहरणों में दिखें वहां अगर कोई पूछे कि आज के समय में इसे पढ़ने, लिखने या सुन लेने का क्या फायदा? उसे मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। आकार की दृष्टि से देखें तो दोनों ग्रंथों में बहुत अंतर है। जहाँ वाल्मीकि की रामायण बहुत वृहत है, तुलसीदास की रामचरितमानस उससे बहुत छोटी होती है। समय काल के हिसाब से दोनों में हजारों साल का अंतर है। तुलसी के काल तक वाल्मीकि के लेखन के आधार पर अनेकों रचनाएँ लिखी जा चुकी थीं। उनकी भाषा भी संस्कृत नहीं इसलिए उनके किये को अर्थ का अनुवाद और फिर उसमें कुछ प्रसंगों का बदलाव माना जा सकता है।

वायुसेना को नुकसान

मध्य प्रदेश और राजस्थान रिफ्यूलिंग करने के बाद यह सीमा पर शनिवार सुबह हुए भारतीय वायुसेना के दो विमानों का क्रैश होना खासा चिंताजनक है। हादसे में दो पायलट तो किसी रह बच गए, लेकिन एक की मौत हो गई। चूँकि दोनों लड़ाकू विमानों सुखोई-30 और मिराज-2000 ग्वालियर एयरबेस से रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी, दोनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का समय भी करीब-करीब समान है और दोनों विमानों का मलबा भी आसपास के ही इलाकों में गिरा है, ज्यादा आशंका यही बताई जा रही है कि दोनों विमान हवा में ही एक दूसरे से टकरा गए होंगे। हालाँकि इन विमानों की क्षमता और पायलटों के प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि इनका इस तरह टकराना कोई



सामान्य बात नहीं है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में विस्तृत जांच की रिपोर्ट से ही यह साफ होगा कि उड़ान के दौरान दोनों में से किसी एक या दोनों विमानों में किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी हुई थी या इस हादसे की कोई और वजह थी। लेकिन ऐसे लड़ाकू विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना वायु सेना के लिए बड़ी क्षति है। सुखोई-30 और मिराज-2000 दोनों ही बेहतरीन और सक्षम लड़ाकू विमानों में गिने जाते हैं। मिराज-2000 ने करगिल युद्ध ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। एक मिराज-2000 की कीमत करीब 167 करोड़ रुपये पड़ती है जबकि एक सुखोई विमान की कीमत 500 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है। सुखोई-30 विमान एक बार में 3000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और हवा में ही

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान


सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान

सुखोई-30 विमान



को भी चेक करो। शायद वह भी पुरुष नदी है। भारत में एक नहीं, बल्कि दो पुरुष नदियां हैं। दिवाकर जी की बात सही निकली। एक कथा में सोन यानी शोणभद्र को नर्मदा का प्रेमी माना जाता है। दोनों की शादी होने वाली थी। इसी बीच नर्मदा को पता चला कि शोणभद्र को नर्मदा की दासी जुहिला से प्रेम हो गया। उसी वक़्त नर्मदा ने सोन से मुंह मोड़ लिया और दूसरी ओर चल पड़ीं। दूसरी कथा के मुताबिक नर्मदा के पिता राजा

मेखल ने तय किया कि जो भी राजकुमार गुलबकावली का दुर्लभ फूल लाएगा, उसी से नर्मदा की शादी होगी। राजकुमार शोणभद्र फूल ले आए। नर्मदा ने राजकुमार को देखा तो नहीं था, पर उनके तपाप की कहानियां सुनकर उन्हें उनसे प्रेम हो गया था। उन्होंने अपनी दा



महाकाल के दर्शन के लिए देने होंगे 250 रुपए

श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में अब प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करने के लिए जाने वाले दर्शनार्थियों को 250 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। मंदिर प्रशासन ने यह व्यवस्था 1 फरवरी से लागू की है। हालांकि, शासन के प्रोटोकॉल में आने वाले अति विशिष्ट दर्शनार्थियों के लिए दर्शन व्यवस्था निशुल्क ही रहेगी।

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अभी तक विभिन्न विभागों को प्रोटोकॉल के माध्यम से दर्शन कराने के लिए कोटा निर्धारित है। इस व्यवस्था के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रोटोकॉल के तहत निशुल्क रूप से शीघ्र दर्शन कराए जाते थे। प्रोटोकॉल व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 27 जनवरी को हुई मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में खाका तैयार कर निर्णय लिया गया था।

शुल्क को लेकर निर्धारण होना था।

सोमवार देर रात को इस व्यवस्था को 1 फरवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया। अब प्रोटोकॉल व्यवस्था में शासन के प्रोटोकॉल की श्रेणी में आने वाले अति विशिष्ट अतिथियों को ही निशुल्क दर्शन करने की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा सत्कार व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले दर्शनार्थियों से गजट प्रावधान के अनुसार 250 रुपए प्रति व्यक्ति भेंट राशि लेने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर समिति ने यह व्यवस्था 1 फरवरी से मंदिर में लागू करने कि सूचना भी जारी कर दी है।

निशुल्क प्रवेश की पात्रता इन्हें रहेगी

श्री महाकालेश्वर मंदिर में 1 फरवरी से लागू हो रही व्यवस्था में दर्शन के लिए आने वाले साधु, संत-महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, पीठाधीश्वर, धर्माचार्य, प्रेस क्लब के सदस्य, अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार (स्वयं) सत्कार व्यवस्था के अंतर्गत निशुल्क शीघ्र दर्शन व्यवस्था से प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा अति विशिष्ट व्यक्ति, जो शासन के प्रोटोकॉल श्रेणी में आते हैं, उन्हें भी निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से कोई दर्शनार्थी प्रोटोकॉल के तहत दर्शन के लिए आते हैं, तो 250 रुपए प्रति व्यक्ति रसीद लेना अनिवार्य होगा।



इसलिए समाप्त की प्रोटोकॉल व्यवस्था

श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंदिर प्रशासन द्वारा अभी तक शासन के विभिन्न विभागों, प्रेस, न्यायिक विभाग, राजनीतिक दल के लिए प्रोटोकॉल के तहत दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं का कोटा निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था के बाद भी देखा गया कि जो श्रद्धालु प्रोटोकॉल के तहत दर्शन में नहीं आते थे, उन्हें भी निशुल्क दर्शन कराए जा रहे थे। वहीं प्रोटोकॉल से दर्शन कराने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत भी मिलने लगी थी। इस कारण मंदिर की व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी। दूसरी परेशानी यह थी कि मंदिर में प्रोटोकॉल के तहत आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी।

सामान्य श्रद्धालुओं को दर्शन सुविधा मिल सकेगी

श्री महाकालेश्वर मंदिर में सभी तरह की प्रोटोकॉल व्यवस्था समाप्त करने के बाद केवल अति विशिष्ट लोगों को ही प्रोटोकॉल के दायरे में रखा गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद माना जा रहा है कि प्रोटोकॉल से दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी। वहीं सामान्य श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सहजता रहेगी। हालांकि, यह व्यवस्था कितने दिन चल सकेगी यह समय अनुसार ही तय हो जाएगा।



पहले पांच महीने में वापस लिया था निर्णय

श्री महाकालेश्वर मंदिर में इसके पहले मंदिर प्रबंध समिति की बैठक 3 सितंबर 2021 में निर्णय लेकर प्रोटोकॉल पद 100 रूपए शुल्क लागू किया था। इसके लिए हरिफाटक ब्रिज के नीचे प्रोटोकॉल का नया ऑफिस भी खोला गया था। शुल्क लगाने के विरोध के बाद करीब पांच महीने बाद ही 16 फरवरी 2022 को प्रबंध समिति न महाशिवरात्रि पर्व के पहले महाकाल दर्शन के लिए वीआइपी दर्शनार्थियों के लिए लागू किए गए 100 रुपए शुल्क को समाप्त कर दिया है। साथ ही वीआइपी प्रवेश के लिए कुछ शर्तें भी लागू की हैं। प्रोटोकॉल के तहत आने वाले सदस्यों को सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा

आज गुरु प्रदोष व्रत, अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त में करें शिव पूजा



साध माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 02 फरवरी दिन गुरुवार को है। यह गुरु प्रदोष व्रत है। इस दिन व्रत रखने के साथ प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस बार गुरु प्रदोष की पूजा के समय अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त बना है। गुरु प्रदोष व्रत रखने और शिव पूजा करने से इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त हुई थी। जो लोग दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनको गुरु प्रदोष व्रत करना चाहिए।

गुरु प्रदोष 2023 पूजा मुहूर्त

02 फरवरी को प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 06 बजकर 01 मिनट से रात 08 बजकर 38 मिनट तक है। इस समय में अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 06 बजकर 01 मिनट से शाम 07 बजकर 39 मिनट तक है। इस मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं।



गुरु प्रदोष व्रत पर बना है रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

प्रदोष की त्रयोदशी तिथि में रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बना है। सर्वार्थ सिद्धि योग 03 फरवरी को सुबह 06 बजकर 18 मिनट से सुबह 07 बजकर 08 मिनट तक है। ऐसे ही रवि योग भी उसी समय 06:18 बजे से लेकर 07:08 बजे तक है।

रुद्राभिषेक के लिए भी है शुभ दिन

02 फरवरी को गुरु प्रदोष व्रत का दिन रुद्राभिषेक के लिए भी शुभ है। इस दिन सुबह से ही कैलाश पर शिववास है, जो शाम 04 बजकर 26 मिनट तक है। उसके बाद नंदी पर शिववास होगा। कैलाश और नंदी पर शिववास रुद्राभिषेक के लिए अच्छा माना जाता है।

गुरु प्रदोष व्रत का महत्व

पौराणिक कथा के अनुसार, वृतासुर के आतंक से देवता गण परेशान थे। वह शिव भक्त था।

उसको पराजित करने के लिए देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की।

प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इंद्र को शत्रु पर विजय का वरदान दिया।

इसके बाद इंद्र ने वृतासुर को हराकर स्वर्ग में शांति स्थापना की। इस वजह से दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत रखा जाता है।

शिंंगणापुर में क्यों नहीं होती चोरी?

बिना ताले के सुरक्षित है हर एक घर

नवग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह की संज्ञा शनि ग्रह को दी गई है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिन लोगों पर भी इसका साया पड़ता है, वह लोग अपनी जिंदगी में पतन की तरफ जाते हैं। जिन लोगों पर शनिदेव की वक्री दृष्टि पड़ती है, उनका जीवन कठिन होता है। शनि देव को पुराणों में कर्मों का फल देने वाले देवता कहा जाता है। शनि देव अपने पिता सूर्य देव की तरह ही तेजस्वी और गुरु भगवान शिव की तरह गंभीर माने गए हैं। भारतवर्ष में शनि शिंगणापुर शनि देव के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि शनि देव की मूर्त वहां कैसे स्थापित हुई? वहां चोरी क्यों नहीं होती? इस विषय पर अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा।



शिंंगणापुर में कैसे आई शनिदेव की प्रतिमा

शनि शिंगणापुर में शनि देव का बहुत प्राचीन मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में बहुत अधिक बारिश की वजह से वहां का जलस्तर काफी बढ़ चुका था। तभी इस बारिश में बहते हुए एक काले रंग की विशाल शिला शिंगणापुर के तट पर पहुंची।

मुखिया के सपने में आए

उसी रात शनिदेव उस गांव के मुखिया के सपने में आए और बताया कि शिला के रूप में वे स्वयं उस गांव में आए हैं। इस बात को सुनकर मुखिया प्रसन्न हुए और अगले दिन इस सपने के बारे में गांव के सभी लोगों को बताया। फिर उन सभी ने मिलकर बिना इंतजार किए शनिदेव को बैलगाड़ी में लेकर गांव के बीच में विराजमान किया, तब से यह प्रतिमा वहीं पर स्थापित है।

शिंंगणापुर में क्यों नहीं होती चोरी

मान्यताओं के अनुसार जब से शिंगणापुर में शनि देव विराजमान हुए हैं, उसी दिन से वहां चोरी-डकैती जैसे वारदात नहीं हो पाए। ये पूरे विश्व में एकलौता ऐसा गांव है, जहां घरों में आज भी दरवाजे नहीं हैं। कई बार लोगों ने वहां चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम हुए हैं और उन्हें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा।

कुंडली में कमजोर हैं राहु–केतु? पैर में काला धागा पहनने से मिलेंगे फायदे

आजकल आपने बहुत से लोगों को पैर में काला धागा बांधे देखा होगा। कुछ लोग तो इसे फैशन के तौर पर पहनते हैं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैर में काला धागा कई समस्या के समाधान के लिए बांधते हैं।

पैर में काला धागा पहनने के फायदे

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पैर में काला धागा पहनने से कई फायदे होते हैं। जो व्यक्ति पैर में काला धागा पहनता है उसकी बुरी नजर से रक्षा होती है। मान्यता के अनुसार पैर में काला धागा



पहनने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है।

कम होता है शनि का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो जातक पैर में काला धागा धारण करते हैं उन पर शनि की सादेसाती और दैव्या का

प्रभाव कम होता है।

कमजोर राहु-केतु के लिए

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में राहु और केतु ग्रह कमजोर होते हैं, उन्हें अपने पैरों में काला धागा बांधने से लाभ मिलता है।

किस पैर में महिला बांधें काला धागा

ज्योतिष शास्त्र के जानकार का कहना है फैशन में आकर महिलाओं को किसी भी पैर में काला धागा नहीं बांधना चाहिए। महिलाओं को हमेशा

बाएं यानी लेफ्ट लेग में काला धागा बांधना चाहिए। कन्या या महिला को हमेशा शनिवार के दिन काला धागा धारण करना चाहिए।

पुरुष किस पैर में बांधे काला धागा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरुषों को हमेशा अपने दाहिने यानी कि राइट लेग में काला धागा बांधने की सलाह दी जाती है। पुरुष इस बात का ध्यान रखें कि वे मंगलवार के ही दिन काला धागा धारण करें। इससे शनि ग्रह को मजबूती मिलती है।



शो से निकलकर टीना दत्ता को ऑफर हुई तेलुगू फिल्म



बिग बॉस 16 के शुरुवार का वार एपिसोड में फिनाले से पहले अभिनेत्री टीना दत्ता घर से बेघर हो गईं। टीना दत्ता घर में काफी समय तक टिकी रहीं। साथ ही, शालीन भनोट के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी चर्चा में रहीं। बातचीत के दौरान, टीना ने अपने 'बिग बॉस' जर्नी, शालीन से अपने रिश्ते और आगे की प्लानिंग पर

रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि सच कहू तो बिलकुल नहीं सोचा था की यूँ फिनाले के करीब पहुंचकर निकल जाऊंगी। मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा खेल रही थी, मेरे खुद के ओपिनियन होते थे, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू होते थे, बहुत ही स्ट्रॉंग होकर हर पल बिताया है। मैं ऑडियंस के सामने अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाने की पूरी कोशिश की, जाहिर है अच्छा नहीं लग रहा शो से एंक्विट होकर।

मुझे लगता है की मैंने अपना 200% दिया, मैंने अपना बेस्ट दिया था। इस शो ने मुझे सिखाया की मैं बहुत स्ट्रॉंग सर्वाइवर हूँ। मुझे इस शो साइन करने का कोई पछतावा नहीं लेकिन हां, इस जर्नी के दौरान कुछ गलतियाँ मैंने जरूर की हैं, जिसे अब एहसास होता है की यदि वो गलती नहीं करती तो मेरी जर्नी और भी खूबसूरत हो सकती थी।

हम दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई भी समनाता नहीं है। वो बहुत ही अग्रेसिव है मैनिपुलेटिव है, मैं कभी भी उससे मिलना नहीं चाहूंगी। मेरे साथ जो भी बिता है उसके बाद तो मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उनसे मिलना नहीं चाहूंगी।

वो विक्रम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे अब एहसास होता है की यदि घर में मैं उनसे दोस्ती नहीं करती तो कुछ अच्छा हो सकता था। अब गलती तो हो गई थी, मिस परफेक्ट तो नहीं सकती।

प्रियंका के साथ मेरा सिर्फ और सिर्फ प्यार वाला रिश्ता ही है, किसी भी तरह की कोई भी नफरत नहीं है। वो बहुत ही समझदार लड़की हैं।

हम दोनों ने कभी सोचा नहीं था की हम कभी दोस्त बन पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ जोकि बहुत खूबसूरत एहसास है। हां ऐसा हुआ क्योंकि उसने मेरे पीठ पीछे कई बातें बोली जोकि मुझे अच्छा नहीं लगा। यदि वो मेरी दोस्त होती तो ऐसा बिलकुल नहीं कहती। मैं उन सभी लड़कियों से पूछना चाहूंगी की यदि आप सिंगल हो तो क्या आप किसी का घर तोड़ रही हो? नहीं ना।

सिंगल रहना आपकी चॉइस है, सही लाइफ पार्टनर का इंतजार करना आपकी चॉइस है। खैर, उसे जो कहना था उसने कहा, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की के बारे में गलत नहीं बोला और ना ही किसी का करैक्टर खराब किया। मैं किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं करूंगी। श्रीजिता के बारे में बस इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती।

प्रियंका चौधरी को ट्रॉफी ले जाते हुए देखना चाहती हूँ।

प्यार के बारे में तो अभी सोच ही नहीं सकती, इतना सब कुछ हो गया जिंदगी में की अब सोचने की हिम्मत ही नहीं। अब मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। हां, मेरी टीम ने मुझे इस बारे में बताया है, कुछ बातचीत चल रही है लेकिन अभी फिलहाल इस बारे में बात करना बहुत जल्दी होगा।

सिटाडेल के इंडियन वर्जन में वरुण धवन के साथ लीड रोल में नजर आएंगी सामंथा

अनटाइटल्ड सिटाडेल सीरीज में वरुण धवन के साथ सामंथा रुथ प्रभु लीड रोल में नजर आएंगी। लोकल इंस्टॉलमेंट को सीता आर. मेनन ने राज और डीके के साथ मिलकर लिखा है। फिलहाल मुंबई में शो के प्री-प्रोडक्शन का काम चल रहा है। इसके बाद, यूनिट उत्तर भारत और फिर सर्बिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे इंटरनेशनल लोकेशन पर शूटिंग के लिए जाएंगी। यह इंडियन ऑरिजिनल सिटाडेल सीरीज दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम मेंबर्स के लिए उपलब्ध होगी।

रुसो ब्रदर्स एंजीबीओ के सिटाडेल यूनिवर्स के भीतर पहली बार लॉन्च होने वाली सीरीज में 'रिचर्ड मैडेन (बॉडीगार्ड)' और 'प्रियंका चोपड़ा

जोनास (क्वांटिको) के साथ डेविड वील (हंटर्स) मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे, जो 2023 में प्रीमियर के लिए तैयार है। पहली बार लॉन्च होने वाली सिटाडेल सीरीज में मैडेन और प्रियंका चोपड़ा जोनास के साथ स्टेनली टुकी (द हंगर गेम्स सागा) भी नजर आएंगे। दूसरी स्थानीय भाषाओं में भी सिटाडेल के प्रोडक्शन का काम जारी है, जिसमें मटिल्डा डी एंजेलिस (द अनड्रैंग) की मुख्य भूमिका वाली इटालियन ऑरिजिनल सीरीज भी शामिल है।

इस मौके पर अपूर्णा पुरोहित, हेड ऑफ इंडिया ऑरिजिनल्स, प्राइम वीडियो ने कहा, “सामंथा के साथ एक बार फिर काम करने की बात से हम बेहद उत्साहित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, “सिटाडेल के

इंडियन इंस्टॉलमेंट के कैनवस का दायरा हमारी सोच से भी बड़ा है, लेकिन ट्रीटमेंट और टेक्सचर के लिहाज से यह रेडो, रूटेड और एकदम अनोखा है। इस सीरीज की बड़े पैमाने पर शूटिंग भारत और दुनिया के दूसरे लोकेशंस पर की जा रही है। राज और डीके इस सीरीज की कमान संभाल रहे हैं, जिसमें जबरदस्त काबिलियत वाले कलाकारों की मौजूदगी को देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि सिटाडेल का इंडियन चैप्टर सचमुच देखने लायक होगा।

मशहूर क्रिएटर्स, राज और डीके ने कहा, “हमें खुशी है कि, द फैमिली मैन के बाद एक बार फिर से हमें सामंथा के साथ काम करने का मौका मिला है। स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद इस किरदार के लिए सामंथा ही हमारी पसंद थी।



हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं है कि वे बोर्ड में शामिल हैं।”

पत्नी के वकील ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर लगाए गंभीर आरोप : कहा- पिछले 7 दिनों से आलिया को खाना और सोने को बिस्तर नहीं दिया

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पिछले कई दिनों से इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब हाल ही में आलिया के वकील रिजवान सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन और उनकी फैमिली पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन लोगों ने आलिया को पिछले हफ्ते से खाना नहीं दिया है। इसके साथ ही सोने के लिए बेड और नहाने के लिए बाथरूम तक इस्तेमाल नहीं करने दिया है।

रिजवान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा, 'नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके फैमिली मेंबर्स ने मेरी क्लाइंट आलिया सिद्दीकी को घर से निकालने के लिए हर संभव कोशिश की है। उन्होंने आलिया पर बहुत अत्याचार किया और उनके खिलाफ अनटेनेबल क्रिमिनल केस दर्ज किया। इसके बाद, पुलिस के जरिए उन्होंने आलिया को गिरफ्तार करने और हर दिन शाम को पुलिस स्टेशन आने की धमकी दी।

आलिया की शिकायत पर भी पुलिस ने नहीं की कारवाई

रिजवान सिद्दीकी ने आगे कहा, 'मैं सीधे तौर पर पुलिस की कार्रवाइयों और व्यवहार को उनके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, फिर भी फैक्सस ये हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर कभी भी आलिया के अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं आया, भले ही पुलिस अधिकारियों के सामने उनकी बेइज्जती की गई हो। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के सामने सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उनकी रिलेशनशिप पर सवाल उठाया गया था, बल्कि छोटे बेटे की वैधता पर भी सवाल उठाया गया था। इतना सब होने के बाद भी पुलिस ऑफिसर्स ने IPC की धारा 509 के तहत मेरी क्लाइंट द्वारा दी गई लिखित शिकायत पर कार्रवाई नहीं की है।'

आलिया को 7 दिनों से नहीं मिला खाना रिजवान सिद्दीकी कहते हैं, 'नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके फैमिली मेंबर्स ने पिछले 7 दिनों में पूरी तरह से कोशिश की कि मेरी क्लाइंट को कोई खाना, कोई बिस्तर और नहाने के लिए बाथरूम नहीं दिया जाए। उन्होंने आलिया के चारों ओर कई मेल बॉडीगार्ड भी तैनात किए हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। मेरी क्लाइंट इन दिनों हॉल में अपने नाबालिग बच्चों के साथ रह रही हैं।'

प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है विवाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आलिया और नवाज की मां में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, जिसकी वजह ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। कुछ दिनों पहले नवाज की मां ने आलिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने IPC की धारा 452, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। नवाजुद्दीन की पत्नी का असली नाम अंजना किशोर पांडे था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना अपना नाम आलिया जैन बन कर लिया।



बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस बीच मंगलवार (31 जनवरी) को कियारा को देर रात फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ स्पॉट किया गया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को अपने होमटाउन दिल्ली में देखा गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ अपनी शादी की सारी तैयारियों के फाइनल राउंड को संभाल रहे हैं। वो हर चीज को अपना पर्सनल टच देना चाहते हैं। इस वजह से वो दिल्ली गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा ये भी जा रहा है कि सिद्धार्थ अपनी शादी के लिए दिल्ली से अपने पेरेंट्स और क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ दिनों में राजस्थान पहुंचेंगे। हालांकि इसे लेकर कोई

होमटाउन दिल्ली पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दोनों ने अपनी शादी के लिए राजस्थान के आलीशान जैसलमेर पैलेस होटल को चुना है। इतना ही नहीं कपल की शादी में टाइट सिक्वोरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं, प्री-वेडिंग से लेकर शादी तक सभी फंक्शन पैलेस के अंदर रखे जाएंगे। इस शादी में सिर्फ फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल होंगे। हालांकि, अभी तक दोनों की शादी को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। सिद्धार्थ और कियारा ने 2021 में आई फिल्म 'शेरशाह' में साथ काम किया है। सिद्धार्थ के वर्कफ्रंट की बात करें तो, एक्टर रोहित शेट्टी से वो दिल्ली गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा ये भी जा रहा है कि सिद्धार्थ अपनी शादी के लिए दिल्ली से अपने पेरेंट्स और क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ दिनों में राजस्थान पहुंचेंगे। हालांकि इसे लेकर कोई

करण जौहर की पार्टी में अनन्या-आदित्य हुए स्पॉट



बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर इन दिनों अपनी लव लाइफ की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में खबर आई थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन सब के बीच सोमवार (30 जनवरी) को इन दोनों को स्पॉट किया गया। इस दौरान दोनों ट्वानिंग करते नजर आए।

दरअसल फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने बांद्रा वाले घर पर एक पार्टी का आयोजन किया था। इसमें अनन्या पांडे और आदित्य रॉय शामिल हुए। अनन्या इस पार्टी में ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आईं। वहीं आदित्य कैजुअल लुक में दिखाई दिए। उन्होंने ब्लैक कैप के साथ ब्लैक टी-शर्ट पहनी थी।

सोशल मीडिया पर अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों अलग-अलग कार से करण के जा रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ फैस का कहना है कि दोनों जानकर एक कार से नहीं आए। वहीं कुछ ने उनकी जोड़ी की तारीफ करते हुए कहा, 'दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं।'

कुछ महीने पहले मीडिया में खबर आई थी कि अनन्या और आदित्य के बीच क्या चल रहा है, कुछ है भी या नहीं इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि दोनों ने एक-दूसरे को अभी

डेट करना शुरू किया है, यही वजह है कि ये दोनों अब तक मीडिया में साथ कैप्चर नहीं हुए हैं।

वहीं कॉफी विद करण के एक एपिसोड में अनन्या पांडे ने आदित्य रॉय कपूर को 'हॉट' बताया था। हालांकि जब करण ने अनन्या से उनके और आदित्य के रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया था। करण ने इसके बाद अनन्या से कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी में दोनों को साथ देखा था, जिसके जवाब में अनन्या ने कुछ नहीं कहा था।

‘गंदी बात’ एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर पर लगाए गंभीर आरोप



फ्लोरा सैनी न केवल फिल्मों में बल्की वेब सीरीज में भी बड़ा नाम कमा चुकी हैं। वह फिल्म 'स्त्री' में नजर आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें पहचान एकता कपूर की सीरीज 'गंदी बात' से मिली। वह बॉल्ड इमेज के अलावा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। साल 2018 में उन्होंने बताया था कि वह एक ऐसे रिश्ते में रह चुकी हैं, जिसके कारण वह कई सालों तक काम नहीं कर पाई थीं। अब फ्लोरा ने चौका देने वाले खुलासे किए हैं। एक्ट्रेस ने अपनी चोटिल चेहरे के साथ एक तस्वीर और कुछ वीडियो शेयर करते हुए एक्ट्रिव रिलेशनशिप की सच्चाई बताई है।

फ्लोरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए खुद के साथ हुए अत्याचारों के बारे में बताया है। जिसके मुताबिक वह 20 साल की उम्र में एक मशहूर प्रोड्यूसर के साथ रिलेशनशिप में थीं। वह उनके प्यार में पड़ गई थीं। फ्लोरा ने बताया, "मैं 20 साल की थी और एक मशहूर प्रोड्यूसर के प्यार में थी। लेकिन जल्द ही चीजें बदल गईं और वह मुझे मारने-पीटने लगा। वह मेरे साथ गाली-गलौज करता था, उसने मेरे चेहरे पर मुक्के मारे और मेरे प्राइवेट पार्ट पर मुक्के मारे। उसने मेरा फोन ले लिया और मुझे काम नहीं करने दिया।"

"14 महीनों तक उसने मुझे कैदी बना दिया, मुझे कसी से बात नहीं करने दी। एक शाम जब उसने मेरे साथ मारपीट की तो मैं वहां से भाग गई

और अपने मां-बाप के पास चली गई। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। मुझे उनसब से उबरने में समय लगा। लेकिन धीरे-धीरे मैं वापस आ गई। मुझे एक्टिंग पसंद थी। भले ही मैंने समय लिया, लेकिन मैं खुश हूँ।"

कैप्शन में फ्लोरा ने लिखा, "जिंदगी आगे बढ़कर जी जा सकती है और आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद ही कुछ बड़े सबक से मिलता है। जब आप इसकी उम्मीद भी नहीं करते। तो जिंदगी के चमत्कार पर

विश्वास करना कभी बंद न करे और ब्रह्मांड को आपके सरप्राइज करने दो। मुझे अभी भी परियों की कहानी पर यकीन है।"

आपको बता दें कि फ्लोरा टॉलीवुड से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम कर चुकी हैं। उन्होंने फिल्म 'धनक', 'वेगम जान' जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वह सुष्मिता आशीर्वाद ही कुछ बड़े सबक से मिलता है। जब आप इसकी उम्मीद भी नहीं करते। तो जिंदगी के चमत्कार पर

वेडिंग ड्रेस फाइनल करके मनीष मल्होत्रा के साथ स्पॉट हुई कियारा आडवाणी



‘पठान’ में दिखा वायरस अटैक बन सकता है हकीकत

एक्सक्लूसिव डेस्क, 1 फरवरी। क्या आपने ‘पठान’ फिल्म देख ली? तमाम एक्शन सीन्स और धमाकों के बीच ये फिल्म एक अहम सवाल भी उठाती है। वो सवाल है रक्तबीज। यानी स्मॉल पॉक्स वायरस का सैपल जिसे कहानी का विलेन हासिल करता है और फिर इस वायरस को जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई करता है कि इसका असर कई गुना तेज और खतरनाक हो जाता है। ये फिल्म देखकर ये सवाल दिमाग में जरूर उठता है कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? जवाब आपको डरा सकता है। जी हां, ऐसा हो नहीं है। सिर्फ स्मॉल पॉक्स ही नहीं, ईसान को इनफेक्ट करने वाले तमाम वायरस के सैपल दुनिया भर की कई रिसर्च फेसिलिटी में रखे गए हैं। खास बात ये है कि इन्हें हासिल करना भी उतना मुश्किल और खतरनाक नहीं है, जितना फिल्म में रक्तबीज को हासिल करना था।

सिर्फ ‘पठान’ ही नहीं, बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई फिल्मों में वायरस के हमले को स्टोरी का हिस्सा बनाया गया है। ये कथानक काल्पनिक होते हैं, मगर फिर भी इन्हें इल्स्पयर करने वाली घटनाएं जरूर वास्तविक होती हैं। ‘पठान’ में वायरस को मॉडिफाई करने की कोशिश बहुत कुछ उन आरोपों से मिलती जुलती है जो कोरोना वायरस के मामले में चीन पर लगते रहे हैं। वहीं, जॉम्बी पर आधारित एचबीओ की सीरीज ‘द लास्ट ऑफ अस’ एक असली फंगस पर आधारित है जो अपने शिकार को कंट्रोल करता है।

क्या कहता है फिल्मी वायरस के पीछे का विज्ञान। क्या वाकई में ऐसे वायरस हैं जो हमारे लिए फिर

ग्लोबल वॉर्मिंग से फंगस बदला तो इंसानों को बना सकता है जॉम्बी

महामारी का खतरा पैदा कर सकते हैं? पहले समझिए, कैसे ‘पठान’ फिल्म का प्लॉट हकीकत भी बन सकता है? अमेरिकी सीनेट कमेटी की एक रिपोर्ट पिछले साल पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन के वुहान में सासं वायरस पर रिसर्च की जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक वुहान की लैब में सासं वायरस के ऐसे स्ट्रेन पर रिसर्च की जा रही थी जो इंसानों में ज्यादा तेजी से फैलता हो। इसके लिए युनान समेत कई जगहों से वायरस के सैपल भी इकट्ठे किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कई पश्चिमी इंस्टीट्यूट्स के साथ भी कोलैबोरेट करता था। मार्च 2018 में एक ऐसे ही रिसर्च कंसोर्टियम ने डिफेंस एंडावर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (डीएपीआरए) से अनुदान के लिए अमेरिका में प्रेजेंटेशन दिया था। इस प्रेजेंटेशन में यह बात सामने आई थी कि वुहान के रिसर्चर्स जिस तरह के सासं वायरस की तलाश कर रहे थे वो उन्हें प्रकृति में नहीं मिला था। ऐसे में वह सासं के कुछ मौजूदा सैपलस को ही मॉडिफाई कर उसका असर देखना चाह रहे थे। डीएपीआरए ने फंड देने से मना कर दिया था। रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई थी कि वुहान की लैब में सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से वायरस लीक हो गया और कोरोना यानी सासंकोव-2 का कहर पूरी दुनिया पर बरपा।

‘पठान’ में जिस तरह से वायरस को मॉडिफाई करने की



बात दिखाई गई है, वह पूरी तरह गैर-वैज्ञानिक नहीं है। मगर फिल्मी कहानी हकीकत नहीं बन सकती क्योंकि एक वायरस को मॉडिफाई करने का काम कुछ दिनों में संभव नहीं है। इसमें सालों की मेहनत और रिसर्च लगती है। सिर्फ यही नहीं, एक वायरस को अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई कर पाना भी संभव नहीं है। वैज्ञानिक वायरस के प्रोटीन्स और रिसिप्टर्स को बदलकर ये देखते हैं कि इसका असर कैसे बदलता है। मगर जरूरी नहीं कि हर बार ये बदलाव उनकी इच्छा या सोच के मुताबिक ही हो।

एचबीओ मैक्स पर दिखाई जा रही वेब सीरीज ‘द लास्ट ऑफ अस’ को बेस्ट हॉरर शो कहा जा रहा है। इस सीरीज की कहानी के मुताबिक पूरी दुनिया एक जॉम्बी पैन्डेमिक का शिकार हो रही है। खास बात ये है कि ये पैन्डेमिक किसी वायरस की वजह से नहीं, बल्कि एक फंगस की वजह से हो रहा है। चौकाने वाली बात ये है कि ये कहानी किसी काल्पनिक फंगस पर आधारित नहीं है। ये फंगस आज भी हमारे बीच मौजूद है। दुनिया के कई हिस्सों में कुछ

इंफेक्शन ज्यादातर त्वचा पर होते हैं। शरीर के भीतर अब तक फंगल इंफेक्शन का कोई केस नहीं आया है। चींटियों या दूसरे कीड़ों के शरीर के भीतर तापमान बहुत कम होता है, इसी वजह से फंगस उनके शरीर में फैल सकते हैं।

वैज्ञानिकों ने कुछ टेस्ट में ये पाया है कि फंगस कुछ प्रजातियों ने ज्यादा तापमान में भी सर्वाइव करना सीख लिया है। इसकी वजह ग्लोबल वॉर्मिंग को माना जा रहा है। दुनिया का तापमान बढ़ने की वजह से फंगस की प्रजातियों को ज्यादा तापमान में सर्वाइव करने की जरूरत पड़ रही है। यह स्किल अगर कॉर्डिसेप्स और ओफियोकॉर्डिसेप्स प्रजाति ने भी डेवलप कर लिया तो वो मानव शरीर के अंदर भी सर्वाइव कर पाएगा। इसी सिद्धांत को ही ‘द लास्ट ऑफ अस’ ने भी कहानी का आधार बनाया है। दुनिया में वैक्सिन को-ऑपरेशन के लिए बने ऑर्गनाइजेशन गावी के मुताबिक अभी भी कई वायरस ऐसे हैं जो दुनिया में अगला पैन्डेमिक ला सकते हैं।

इबोला फरवरी, 2020 में अफ्रीका के कॉन्गो में इबोला का आउटब्रेक हुआ था। इससे पहले 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में ये इबोला वायरस फैला था। इस बीमारी की पूरी तरह अप्रूव्ड वैक्सिन अभी तक नहीं है। 2020 के आउटब्रेक के दौरान मर्क कंपनी की एक वैक्सिन का इस्तेमाल किया गया था, मगर ये अभी तक सारे टेस्ट से नहीं गुजरी है।

डेथ रेट: 2014 में इबोला के

28616 केस सामने आए थे, जिनमें से 11310 लोगों की मौत हो गई थी। 2020 के आउटब्रेक में 3456 केस मिले थे जिनमें से 2276 की मौत हो गई थी।

मरवार इबोला परिवार का ये वायरस भी बॉडी फ्लूएड्स से फैलता है। 2017 में अफ्रीका के यूगांडा में ये आउटब्रेक फैला था। इस वायरस के लिए भी अभी तक फुली अप्रूव्ड वैक्सिन नहीं है।

डेथ रेट: 2017 के आउटब्रेक में 3 केस मिले थे और इन सभी की मौत हो गई थी। 2005 में अंगोला में आउटब्रेक फैला था जिसमें 200 केस मिले थे। इसमें भी 90% मरीजों की मौत हो गई थी।

निपाह इस वायरस का फैलाव चमगादड़ों से इंसानों में होता है। अब तक इस वायरस का वैक्सिन तैयार नहीं किया गया है। यह साउथ-ईस्ट एशिया के चमगादड़ों में बहुत कॉमन है।

डेथ रेट: 2018 में केरल में इस वायरस के 23 मामले सामने आए थे, इसमें से 17 लोगों की मौत हो गई थी। ये बीमारी 78% मरीजों की जान ले लेती है।

मर्सकोव-2 मिडिल ईस्ट रेस्पेरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस इस वायरस का पूरा नाम है। ये पिछले कुछ सालों से दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। अब तक इसके लिए दो वैक्सिन के ट्रायल दो फेज तक हो चुके हैं। मगर ये अभी तैयार नहीं है।

डेथरेट: 2012 में इस वायरस की पहचान हुई थी। तब से अब तक इस बीमारी के 2519 केस सामने आ चुके हैं, इनमें से 866 की मौत हो चुकी है।

अंबिका सिंहदेव से एनआरआई पति की विधायकी छोड़ने की अपील

कहा- राजनीति छोड़कर परिवार के पास लौटें वापस



अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने इनका जिक्र करते हुए लिखा कि 'पिछले 5 बरस से आप ही दोनों ने मेरी पत्नी के हर काम में साए की तरह साथ दिए हैं, एक आखिरी बार और दे दीजिए। हम हमारे परिवार की ओर से आप दोनों का हमेशा आभारी रहेंगे'। अंबिका सिंहदेव छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्तमंत्री रामचंद्र सिंहदेव की भतीजी हैं। रामचंद्र सिंहदेव कोरिया के राजा कहे जाते थे। वे अविभाजित मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री रहे। वो कोरिया नरेश और कोरिया कुमार के नाम से भी विख्यात थे। उनकी मौत 5 साल पहले हो गई थी। उनकी भतीजी अंबिका सिंहदेव विधायक और संसदीय सचिव हैं। अंबिका कभी राजनीति में नहीं रहीं। अपने काका रामचंद्र सिंहदेव के निधन

भैयालाल राजवाड़े ने कहा था कि मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला है, न ही मैंने कोई गाली जैसा शब्द बोला है, इनकी जिला पंचायत में बुरी तरह से हार हुई है, इसलिए मेरे ऊपर मेरे बयान को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है।

विधायक अंबिका सिंहदेव के पिता का नाम महेंद्र प्रताप सिंहदेव था। वहीं उनके चाचा छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव थे। अंबिका का जन्म 12 फरवरी 1968 को कोलकाता में हुआ था। उनकी शादी अमिताभ घोष से 20 अप्रैल 1996 में हुई थी। महिला विधायक ने बीकॉम की डिग्री हासिल की है। साथ ही इन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन का भी कोर्स किया है। इनके 2 बेटे हैं। अभी इनके पति और दोनों बेटे लंदन में रहते हैं, जबकि वे अकेली बैक्युंठपुर के रामानुज विलास पैलेस में रहती हैं। अंबिका सिंहदेव पहली बार 2019 में विधानसभा के लिए निर्वाचित हुईं। 2020 में उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया। 2020-21 में उन्हें सदस्य, महिलाओं एवं बालको के कल्याण संबंधी समिति छत्तीसगढ़ विधानसभा बनाया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता भैयालाल राजवाड़े को हरा दिया था।

युवक को टक्कर मारकर 30 मीटर घसीट ले गई कार

गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रख किया चक्काजाम

जांजगीर-चांपा, 1 फरवरी (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ के जांगजीर-चांपा में मंगलवार रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। युवक सड़क किनारे खड़ा हुआ था। इस दौरान कार उसे टक्कर मारते हुए करीब 30 मीटर तक घसीटकर ले गई। इसके बाद चालक भाग निकला। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक, ग्राम पनारी निवासी ईश्वरी प्रसाद कश्यप (45) मंगलवार रात करीब 9.30 बजे खाना खाने के बाद घर

के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और घसीटते हुए ले गई। हादसे में ईश्वरी प्रसाद को गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते देख आसपास के लोग भी एक्कर हो गए। परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव रखकर जाम लगा दिया। मेन रोड पर जाम लगने की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। करीब दो घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर वहां से हटाया। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जाएगा। ईश्वरी प्रसाद का घर घटनास्थल से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। वह मजदूरी करता था।

आशीर्वाद टावर में आग से 14 की मौत

दीया गिरने से लगी आग, सिलेंडर फटने से भड़की, मृतकों में 10 महिलाएं

धनबाद, 1 फरवरी (एजेंसियां)। झारखंड में धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित दास मंजिला आशीर्वाद दिवन टावर में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई। इसमें 10 महिलाओं समेत 14 लोगों की मौत हो गई। अब तक 35 से अधिक घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। आग दायी गिरने से लगी। फिर गैस सिलेंडर से भड़क उठी। पहले सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने की बात सामने आई थी। 20 से अधिक फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। आग मंगलवार शाम साढ़े छह बजे थर्ड फ्लोर पर लगी। देखते-देखते एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट और फिर 6 फ्लोर तक फैल गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि झुलसने के कारण शव पहचान में नहीं आ रहे हैं। कुछ शव एक-दूसरे से चिपके हुए हैं।

मृतकों में 10 महिलाएं, तीन बच्चे और एक बुजुर्ग शामिल हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा। बिल्डिंग में अब भी कई लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। फोर्थ फ्लोर पर सुबोध लाल वर्णवाल का फ्लैट है। उनकी बेटी पूजा की शादी मंगलवार को थी। सुबोध लाल के रिश्तेदार अशोक लाल ने बताया कि दुल्हन तैयार होकर शाम पांच बजे मैरिज गार्डन चली गई थीं। वहीं पूजा की मां, चाची, मौसी समेत महिलाएं और बच्चे तैयार होकर निकलने वाले थे। वे आग में धिर गए। वे बदहवास होकर इधर-उधर भाग रहे थे। महिलाएं

लगेज लेकर सीढ़ी से नीचे उतरने लगीं। इसी दौरान आग की लपटों में घिरकर पूजा की मां माला देवी, मौसी सविता देवी, सविता देवी का 8 साल का बेटा अमन, एक अन्य रिश्तेदार सुशीला देवी और लाल की बच्ची तान्या की मौत हो गई। पूजा के दादा की भी मौत की सूचना है।

आग इतनी भीषण है कि कुछ बचावकर्मी भी झुलस गए हैं। लोगों को बचाते समय बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह भी झुलस गए हैं। उन्हें इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है।

लोगों के मुताबिक अपार्टमेंट के दूसरे फ्लोर पर पंकज अग्रवाल का फ्लैट है। शाम को फ्लैट में

महिला पूजा के दौरान दीया प्रज्वलित किया था। एक बच्चे ने दीया नीचे गिरा दिया। नीचे बिछे कारपेट में आग लग गई। जब तक महिला आग बुझाती, वहां से आग की लपटें निकलने लगीं। महिला बच्चे को लेकर निकल गई। इधर, आग तेजी से थर्ड और फोर्थ फ्लोर के फ्लैट तक फैल गई। फ्लैट में रखे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। इससे आग और भड़क गई।

झारखंड के धनबाद में शुक्रवार रात 1 बजे एक प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई। इसमें डॉक्टर दंपती समेत 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे के वक्त सभी लोग सो रहे थे। डॉक्टर का शव बाथटब से मिला है।

दो भाइयों ने तीसरे भाई को मार डाला

घर के आंगन में ही सजाई चिता, फिर हुए फरार



रायगढ़, 1 फरवरी (एजेंसियां)। दो भाइयों ने मिलकर तीसरे की हत्या कर दी। फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए घर के आंगन में ही चिता सजा दी और जलाने का प्रयास किया। हालांकि, वह ऐसा नहीं कर पाए और फिर फरार हो गए। मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, रायगढ़ जिले के जूट मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत यह घटना पेश आई है। दो भाइयों ने मिलकर पैसे के विवाद में अपने सगे भाई की हत्या कर दी, आरोपियों ने अपना अपराध छुपाने के लिए पहले तो युवक की हत्या की फिर उसके बाद शव को

कार्यपालन अभियंता से दगी

अंबिकापुर, 1 फरवरी (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में विद्युत विभाग के एक कार्यपालन अभियंता से शांतिरों ने डेढ़ लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने इंजीनियर को कोरियर सर्विस का झांसा दिया और ऑनलाइन फार्म भरवाकर पांच रुपये का भुगतान कराया। इसके बाद उनके खाते से तीन बार में डेढ़ लाख रुपये निकाल लिए गए। इसका पता चलने पर इंजीनियर ने बैंक को सूचना दी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला गांधी नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, रावत रेसिडेंसी निवासी दीपक शर्मा बैकुंठपुर में विद्युत विभाग में कार्यपालन अभियंता के पद पर हैं। उनके मोबाइल पर दो जनवरी को कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को कोरियर सर्विस का कर्मचारी बताया। कहा कि कंपनी की सुविधा लेने पर कोरियर ब्रॉयघ घर से पार्सल लेगा और बताए गए स्थान पर डिलीवरी कर देगा। दीपक शर्मा को ठग की बताई स्क्रीम ठीक लगी और उन्होंने हां कह दिया। इसके बाद ठग ने उन्हें एक लिंक भेजा और उसमें फार्म भरकर पांच रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कहा। आसान प्रक्रिया के चलते दीपक शर्मा ने फार्म भर दिया और यूपीआई से रुपये का भुगतान कर दिया।

बजट के बहाने सीएम भूपेश का केंद्र पर तंज

मुख्यमंत्री बोले-लगातार ट्रेनें रद्द हो रहीं, रेलवे स्टेशन बिक रहे, अब तो कुछ दिन थम ही जाएगा



रायपुर, 1 फरवरी (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार शाम श्रीनगर से रायपुर लौट आए। वे भारत जोड़ो यात्रा के समापन रैली में शामिल होने गए थे। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्रीय बजट के बहाने केंद्र सरकार और एक कारोबारी घराने के कथित रिश्तों पर महीन तंज कसा। उन्होंने कहा, अभी तक लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, अब तो कुछ दिन थम ही जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेने बंद कर दी गई थीं। नई ट्रेन जगदलपुर के लिए हो यह लोगों की डिमांड है। इसके लिए आंदोलन भी हुए। उसी प्रकार से सरगुजा साइड की ट्रेनों की

डिमांड है। यह हो जाए। वैसे भी रेल बजट तो बंद हो गया है तो अलग से कोई चर्चा तो होती नहीं, न ही डिमांड होती है।

लगातार ट्रेनें रद्द भी हो रही हैं, रेलवे स्टेशन बिक भी रहे हैं। अब तो शायद कोई खरीदने वाला, कुछ दिन तो यह थम ही जाएगा। जो नगरनगर जैसे स्टील प्लांट हैं वह न बिके। हम लोगों ने तो विधानसभा में पारित किया है कि इसे राज्य सरकार को दे दें। इसे हम लोग चलाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए जो हम लोगों ने डिमांड किया है कि कोयले की रॉयल्टी को जो पैसा है, हमारे जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्ससाइज का पैसा है वह हमको दे दें। 2014 के बाद से कोयले की रायल्टी बढ़ी नहीं है। हर तीन साल

में उसे बढ़ाने की बात कही गई थी लेकिन उसके बाद से उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राहुल जी की पदयात्रा एक असंभव सा काम था। लोग सोच रहे थे कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जिस दिन से घोषणा हुई थी और जब पदयात्रा शुरू हुई थी तबसे यह चर्चा थी। जैसे-जैसे पदयात्रा आगे बढ़ती गई लोग उससे जुड़ते गए। किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे सारे लोग, सभी वर्गों के लोग उससे जुड़ते गये। भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में कैसे होगा लेकिन उन्होंने वह कार्य भी कर दिखाया। श्रीनगर जाकर लाल चौक पर झंडा भी फहराया। यह बहुत सफल आयोजन रहा।

श्रीनगर के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जब हम लोग सात सितम्बर की निकले थे तब बादल भी था। हल्की बारिश हो रही थी। जब यहां पहुंचे तो भारी बर्फबारी हो रही थी। उस बर्फबारी में भी राहुल जी का भाषण हुआ। वहां सभी दलों के लोग थे। हम लोगों के लिए तो यह भी नया अनुभव था कि बर्फ में कैसे लोग रहते हैं। बर्फ गिरते तो पहली बार हम लोगों ने देखा।

सुरक्षा गार्ड ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी

सुसाइड नोट में लिखा- 10 हजार के लिए ससुराल वालों ने मेरी जान ले ली

कोरबा, 1 फरवरी (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक युवक ने मंगलवार देर रात ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। युवक का शव तड़के लोको पायलट ने ट्रैक पर पड़ा देखा तो आरपीएफ को सूचना दी। इसके बाद शव की शिनाख्त कराई गई। युवक कोरबा की एक ऑयल कंपनी में सुरक्षा गार्ड था। रेलवे पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें उसकी ने 10 हजार रुपये के लिए उसकी मौत का जिम्मेदार ससुराल वालों को बताया है। फिलहाल मामले की जांच रेलवे पुलिस कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, चांपा के पास मंगलवार देर रात एक युवक का शव रेलवे पुलिस को मिला था। उसके पास मिले दस्तावेज के आधार पर पुलिस कोरबा पहुंची तो पता चला कि मरने वाला युवक

विलासपुर निवासी मोहम्मद साहिल (25) था, जो कोरबा की एक ऑयल कंपनी में पदस्थ था। पुलिस को उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें लिखा है कि, 10 हजार के लिए ससुराल वालों ने जान ले ली। मेरी जान ससुराल वालों की न देकर अब्बू और अम्मी को देना। सुरक्षा गार्ड मोहम्मद साहिल की शादी एक साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी ने पांच दिन पहले ही बेटी को जन्म दिया है।

अभी वह अस्पताल में है। इसके चलते पत्नी को जानकारी नहीं दी गई है। साहिल के ससुर ने मोहम्मद हुसैन ने बताया कि उसने रुपयों के इंतजाम को लेकर परेशानी बताई थी। उन्होंने कहा कि, हम इसकी व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन तब तक उसने खुदकुशी कर ली।



'ऐसा तो भारत में भी नहीं होता'

पेशावर विस्फोट पर पाक मंत्री ने स्वीकारा- हमने ही बोए आतंक के बीज

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर बेतुका बयान दिया है। दरअसल पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले पर बोलते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि 'पूजा कर रहे लोगों पर भारत या इजरायल में भी हमले नहीं होते हैं लेकिन ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है'। पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अब देश को एकजुट हो जाना चाहिए। बता दें कि पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि 'हमें अपने घर को सही करने की जरूरत है'। उन्होंने कहा कि 'साल 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार में स्वात से इस लड़ाई का आगाज हुआ था और साल 2017 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरकार के समय यह खत्म हो

माइक्रो रेडियोएक्टिव कैप्सूल गुमने से हड़कंप

ट्रक से रास्ते में गिरा, लगातार छोड़ रहा रेडिएशन, 1400 किमी में तलाश जारी



मेलबर्न, 1 फरवरी (एजेंसियां)। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा रेडियोएक्टिव कैप्सूल खोने से हड़कंप मचा हुआ है। हालात ये हैं कि अब देश की सबसे बड़ी न्यूक्लियर एजेंसी उसे खोजने में जुट गई है। रिपोटर्स के मुताबिक यह कैप्सूल 12 जनवरी को तब खोया था, जब इसे दूसरे कैप्सूल के साथ एक ट्रक में लाद कर एक माइनिंग साइट से लाया जा रहा था।

ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों का मानना है कि कैप्सूल ट्रक के खराब रास्तों से गुजरते हुए हिलने-डुलने की वजह से कहीं गिर गया। इस कैप्सूल की लंबाई



गई थी और कराची से लेकर स्वात तक शांति स्थापित हो गई थी'। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक या दो साल पहले हमने दो तीन बार कहा था कि इन लोगों (टीटीपी) से बात की जानी चाहिए ताकि शांति रहे। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। भारत इस मुद्दे पर काफी मुख़र है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तानी संसद में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि

'मैं ज्यादा नहीं कहूंगा बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमने ही आतंकवाद के बीज बोए थे'।

पेशावर की एक मस्जिद में सोमवार को एक फिदायीन ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था। यह विस्फोट पेशावर के पुलिस लाइंस इलाके में स्थित मस्जिद में उस समय हुआ, जब बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ रहे थे। विस्फोट के चलते मस्जिद की छत नमाजियों पर गिर गई थी, जिससे भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार, आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान ने इस हमले को अंजाम दिया है।

केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ में नई संभावनाएं

एकलव्य आवासीय विद्यालयों में भर्तियां, विशेष संरक्षित जनजातियों तक पहुंचेगा तेज विकास, मिलेट एक्सपोर्ट का भी फायदा

रायपुर, 1 फरवरी (एजेंसियां)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश कर दिया है। चुनावी साल के इस बजट से छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं बनाई हैं। इसमें आदिवासी जिलों में एकलव्य आवासीय विद्यालयों में नई भर्तियों, विशेष संरक्षित जनजातियों के विकास के लिए शुरू हुए नए मिशन और मिलेट निर्यात को बढ़ावा देने की नीति से छत्तीसगढ़ को फायदा होता दिख रहा है।

छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा आदिवासी बहुल है। यहां के 24 जिलों 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। इन स्कूलों के जरिये आदिवासी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई और आवास की सुविधा दी जाती है। केंद्रीय बजट में कहा गया है कि देश भर के ऐसे विद्यालयों में 38 हजार 800 शिक्षकों और सहायक कर्मियों की भर्ती होनी है। छत्तीसगढ़ के इन स्कूलों में करीब 4 हजार पद रिक्त

अदाणी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांव करेगी ऑस्ट्रेलिया सरकार

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट से अदाणी ग्रुप को तगड़ा झटका लगा है और कंपनी के शेयरों में गिरावट आई है। अब खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट रेगुलेटर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है। बता दें कि अमेरिकी फर्म हिंडेनबर्ग ने बीती 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी कर अदाणी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई।

अब ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉनिंग हेराल्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट रेगुलेटर्स भी मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया कॉरपोरेट रेगुलेटर ऑस्ट्रेलियन सिक्नोरिटीज एंड इनवेस्टमेंट कमीशन ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। बता दें कि गौतम अदाणी के नेतृत्व वाला अदाणी समूह ऑस्ट्रेलिया में भी बिजनेस करता है।

जिस ट्रक से कैप्सूल गिरा वो रिओ व्हिटो नाम की एक माइनिंग कंपनी का था। कंपनी ने इस मामले को लेकर माफी मांगी है। वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के चीफ हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि इस तरह से किसी रेडियोएक्टिव कैप्सूल का खोना कोई आम घटना नहीं है।

देश को मिली सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन

कसौली, 1 फरवरी (एजेंसियां)।

देश को देश में ही निर्मित सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मिल गई है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित पहली स्वदेशी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन का नाम सर्वावाक है, जो केंद्रीय ड्रग्स लेबोरेटरी (सीडीएल) कसौली के मानकों पर खरी उतरी है। इस बारे में लैब के निदेशक सुशील साहू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में सफल परीक्षण के बाद सीडीएल ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जरनल ऑफ इंडिया (डीसीजीएआई) से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में कंपनी ने बीते सप्ताह 3 बैच परीक्षण के लिए भेजे थे। इन 3 बैच में लगभग 70 हजार डोज थी, जिनकी क्वालिटी और कंट्रोल का टेस्ट किया गया।

बता दें कि बालिका दिवस के मौके गुहमंत्री अमित शाह ने सर्वाइकल कैंसर के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया था। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (डीबीटी), बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च अंजिस्ट्रेस काउंसिल (बीआईआरएसी) और बिल एंड मेर्कलंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से बनाया गया।

वैक्सीन बनने में करीब 6 से 7 साल लगे। सीरम इंस्टीट्यूट को भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) से वर्ष 2022 में सर्वाइकल कैंसर का टीका विकसित करने के लिए बाजार प्राधिकरण प्राप्त हुआ था।

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट से अदाणी ग्रुप को तगड़ा झटका लगा है और कंपनी के शेयरों में गिरावट आई है। अब खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट रेगुलेटर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है। बता दें कि अमेरिकी फर्म हिंडेनबर्ग ने बीती 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी कर अदाणी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। अब ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉनिंग हेराल्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट रेगुलेटर्स भी मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया कॉरपोरेट रेगुलेटर ऑस्ट्रेलियन सिक्नोरिटीज एंड इनवेस्टमेंट कमीशन ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। बता दें कि गौतम अदाणी के नेतृत्व वाला अदाणी समूह ऑस्ट्रेलिया में भी बिजनेस करता है।

निर्मला की 10 से 2000 के नोट जैसी साड़ियां

साड़ी को शान मानने वालीं वित्तमंत्री संबलपुरी इकत, कांजीवरम की शौकीन, काले रंग से परहेज

नई दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसियां)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास साड़ियों का खूबसूरत कलेक्शन है। उनकी साड़ियों के रंग अक्सर देश की करेंसी से मेल खाते दिखते हैं। वह कई मौकों पर 10 रुपए से लेकर 2,000 रुपए के नोट के रंग की मैचिंग साड़ी में नजर आती हैं। निर्मला ने आज 2023-24 का बजट लाल रंग की संबलपुरी सिल्क साड़ी में पेश किया, जिसे टेपल साड़ी भी कहते हैं। वह ऐसे मौकों को पसंद करती हैं।

निर्मला की पर्सनैलिटी की

अजीत डोभाल ने की जैक सुलिवन से मुलाकात

कहा- इरादों, विचारों को ठोस अमली जामा पहनाने की जरूरत



वाशिंगटन, 1 फरवरी (एजेंसियां)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वाशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन से मुलाकात की।

आईसीईटी उद्घाटन बैठक के समापन के बाद व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट में कहा कि हम आपसी विश्वास और विश्वास के आधार पर एक खुले, सुलभ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करेगा।

आईसीईटी

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर लॉन्च किया जा रहा है, जिन्होंने मई 2022 में अपनी टोक्यो बैठक के बाद सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने और विस्तारित करने की घोषणा की थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इरादों और विचारों को ठोस अमली जामा की जरूरत पर जोर दिया। डोभाल सोमवार को महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत-अमेरिकी पहल के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। चैंबर ऑफ कॉमर्स के यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल इस सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो और अमेरिकी

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने की।

डोभाल और अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने प्रौद्योगिकी विकास में भारत की उल्लेखनीय क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत में प्रौद्योगिकी के उपयोग को न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के रूप में बल्कि सामाजिक समावेश के एक साधन के रूप में भी बताया।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि एनएफए अजीत डोभाल 30 जनवरी से लेकर एक फरवरी तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर थे।

इस दौरान उन्होंने अमेरिकी नीति निर्माताओं, कांग्रेस, व्यापार, शैक्षणिक और अनुसंधान समुदायों के हितधारकों के साथ कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। मंत्रालय ने बताया कि डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ 31 जनवरी को व्हाइट हाउस में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आईसीईटी पर पहल की सह-अध्यक्षता की।

न्यूजीलैंड में चल रहे हिंदी स्कूल

गीता भी पढ़ रहे बच्चे, संस्कृति अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की पहल कर रहे भारतीय



तो 40 छात्र थे। 2022 तक 260 छात्र हो गए। नई पीढ़ी रामायण पढ़े और संगीतमय गान भी करे, इसीलिए 2003 से भारतीय संगीत पाठ्यक्रम का हिस्सा बना। भारत से आए बसंत मधुर ने तबला, हारमोनियम सिखाना शुरू किया और उनका साथ दिया फिजी के मास्टर अशोक ने। इस पाठ्यक्रम में 5 साल के बच्चे से लेकर 63 साल के बुजुर्ग तक हिंदी और संगीत सीखने लगे। शर्मा ने कहा- हमारा नारा है- हमारी भाषा,

ऑस्ट्रेलिया में खोया रेडियोएक्टिव कैप्सूल 20 दिन बाद मिला

कैनबरा, 1 फरवरी (एजेंसियां)।

ऑस्ट्रेलिया में 20 दिन पहले खोया एक छोटा सा रेडियोएक्टिव कैप्सूल मिल गया है। इसके ज्यादा करीब जाने से रिक्कन जलने और कई गंभीर बीमारियों का खतरा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसमें मौजूद सेसियम केमिकल इंसान की हड्डियों में जाकर गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। रिपोटर्स के मुताबिक, ये कैप्सूल 12 जनवरी को तब खोया था जब इसे दूसरे कैप्सूल के साथ एक ट्रक में लाद कर एक माइनिंग साइट से लाया जा रहा था। फिर 25 जनवरी को खबर मिलते ही चेतावनी जारी कर दी गई थी और तलाश शुरू कर दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया की रेडिएशन प्रोटेक्शन और न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी ने बताया कि एक हफ्ते में पथ और पिलबारा के बीच 1400 किलोमीटर के इलाके में कैप्सूल की खोज की गई।



यूएसपी है-उनकी हैंडलूम और सिल्क साड़ियां। 26 जनवरी को वह बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी में नॉर्थ ब्लॉक में हरी और पीली कांजीवरम साड़ी में नजर आईं। खास मौकों पर वह ज्यादातर संबलपुरी, इकत, कांजीवरम की साड़ियों में नजर आती हैं, लेकिन काले रंग से उन्हें परहेज है। निर्मला सीतारमण ज्यादातर साड़ियों में ही नजर आई हैं और वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने पहनावे में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की। साड़ी पहनकर वह आम भारतीय होम मेकर्स जैसी ही लगती हैं।

हिमाचल सीमेंट फैक्ट्री विवाद नहीं सुलझा

शाम सीएम ने बुलाई ट्रांसपोर्टरों की बैठक, मुख्यमंत्री बोले- प्रदेश में 60% प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए



करिया तय करना चाहते हैं, ताकि दोनों पक्षों का फायदा हो। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सीमेंट फैक्ट्री विवाद का समाधान निकाल दिया जाएगा।

बता दें कि अंबुजा व एसीसी सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन और ट्रक

ऑपरेटरों के बीच डेढ़ महीने से अधिक समय से विवाद चल रहा है। इसे देखते हुए ट्रक ऑपरेटरों ने 4 फरवरी को प्रदेशभर में चक्का जाम की चेतावनी दे रखी है। ऐसे में अब राज्य सरकार के लिए भी सीमेंट फैक्ट्री विवाद गले की फांस बनता जा रहा है।

राज्य सरकार तमाम प्रयासों के बावजूद इस विवाद का हल नहीं निकाल पा रही है। ट्रांसपोर्टर अब उग्र रास्ता अपनाने की बात कह चुके हैं। इसी कड़ी में 4 फरवरी को दाड़लाघाट और बरमाणा के

अलावा दूसरे जिलों में भी चक्का जाम की चेतावनी दी गई है।

5 साल में 60% पेपर लीक हुए हिमाचल में बीते सालों के दौरान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें से करीब 60 फीसदी पेपर लीक हुए हैं। यह दावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख्खू ने किया है। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम सुख्खू ने कहा कि विजिलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ ओर भी बड़े खुलासे संभावित है।

बजट प्रतिक्रिया

हर नागरिक की आकांक्षाओं पर खरा उतरता बजट : डॉ. मोहन गुप्ता

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। अग्रवाल शिक्षा समिति के ट्रस्टी तथा नगर के प्रसिद्ध सर्जन डॉ. मोहन गुप्ता ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि केंद्रीय बजट में हर नागरिक की आशा को पूरा करने का प्रयास किया गया है। बजट के शिल्पी तथा इसके निर्माण में मार्गदर्शक रहे हमारे प्रधानमंत्री का योगदान श्लाघ्य है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लिए गए कई निर्णय निकट भविष्य में देश के हित में होंगे। पर्यटन के क्षेत्र में व्यावसाय को बढ़ाने की कोशिश और आयकर की सीमा को बढ़ाना वित्तीय दृष्टि से सराहनीय कदम है। कुलमिलाकर बजट में कम आयवर्ग खासकर मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है।

वजट एक कदम स्वार्णिम भारत की ओर : जिहेश दोशी

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। दी गुजराती वेलफेयर सोसायटी, हैदराबाद के अध्यक्ष तथा श्री गुजराती प्रगति समाज के महामंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जिहेश दोशी ने केंद्रीय बजट 2023 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों का ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इस बजट में किसान, व्यापारी, सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाला है। इसमें केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि इतने सुंदर बजट के लिए पीएम व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बधाई के पात्र हैं।

आमजन हितकारी है बजट : रमेश बंग

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। आन्ध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के चेयरमैन रमेश कुमार बंग ने केंद्रीय बजट को आमजन हितकारी बजट बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण ने इस बार देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए आत्म निर्भर भारत की संकल्पना का विचार रखते हुए देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुँचाने में लक्ष्य से वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनावों के पहले यह आखिरी पूर्ण बजट प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री के शब्दों में यह बजट वंचितों को वरीयता प्रदान करने वाला बजट है। वित्त मंत्री ने सहकारी क्षेत्र के लिए भी विकासन्मुखी घोषणाएँ की है। राष्ट्रीय निर्यात सोसाइटी, राष्ट्रीय को-ऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक उत्पाद, राष्ट्रीय मल्टी स्टेट सीड (बीज) को-ऑपरेटिव सोसाइटी के गठन से कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की 63000 सक्रिय कृषि उत्पाद सहकारिताओं को इनका विशेष लाभ मिलेगा। कृषकों को ऋण योजना में 20 लाख करोड़ तक का आबंटन एक सराहनीय कदम है। विनिर्माण, आधारभूत संरचना के द्वारा देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में कदम उठाये जा रहे हैं। सक्षम, विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकल विद्यालय की स्थापना और 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति इस ओर उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इनर नेशनल स्किल सेंटर का निर्माण भी इसी योजना का अंग है। वरिष्ठजन बचत योजना की राशि को दोगुना कर दिया गया है। महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति बढ़े इसके लिए विशेष योजना बनाई गयी है। कर्मोबेश हर वर्ग एवं हर क्षेत्र के लिए उत्साहजनक परिणाम देने वाला बजट है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा एक बेहतर कदम : श्याम मोहन यादव

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। उद्यमी व समाजसेवी श्याम मोहन यादव ने केन्द्रीय बजट को एक संतुलित बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में केन्द्र सरकार ने सभी वर्गों को ख्याल रखा है। खासकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा बूरर होगा। इससे किसानों को मदद मिलेगी। इसी तरह केन्द्रीय वित्त मंत्री ने व्यापारियों को भी राहत देने का ऐलान किया है। आम लोगों को भी टैक्स से राहत दी गई है। देश के सभी वर्गों को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सभी की उम्मीदों पर केन्द्रीय बजट खरा नहीं उतर पाया है।

बुर्जुगों और गरीबों के लिए कुछ खास नहीं : बिनय कुमार यादव

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। बिहार सद्योग समिति, तेलंगाना के अध्यक्ष बिनय कुमार यादव ने का कि केन्द्रीय बजट में बुर्जुगों और गरीबों के लिए कुछ खास नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने स्थानीय निकायों, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों के लिए बजटीय आवंटन में भारी कटौती की है। केंद्र सरकार को रेलवे में बुर्जुगों को रेल यात्रा और हवाई यात्रा में छूट देना चाहिए। जबकि देश के राजनता मोटा वेतन और भत्ता पाने के साथ रेल और हवाई सेवा में भारी छूट का आनंद ले रहे हैं। केन्द्र सरकार केवल अमीरों का ध्यान केन्द्रित किए हुए है। कई राज्यों में गरीबों को घर नहीं है। इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकी है। बेटी पढ़ाओं और बेटी बचाओं का नारा देने वाली केन्द्र सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए कोई बड़ा प्रावधान नहीं किया है। केंद्र सरकार के बजट में तेलंगाना राज्य की रेलवे लाइनों के लिए आवंटन में कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट ने एक बार फिर तेलंगाना राज्य के साथ भारी अन्याय किया गया है।

अब तक के सबसे अच्छे बजट : डॉ. अजय अग्रवाल

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। इंटर नेशनल चैंबर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के अध्यक्ष डॉ. अजय अग्रवाल ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। मैं इसे अब तक के सबसे अच्छे बजट प्रस्तावों में से एक मानता हँव्योंकि यह 'हर क्षेत्र के लिए कुछ' प्रदान करता है क्योंकि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था विभिन्नकारणों से चुनौतियों का सामना कर रही है, घरेलू के साथ-साथ भू-राजनीतिक रूप से भी। पहलीप्रतिक्रिया दलाल स्ट्रीट से आई क्योंकि संसेक्स ने 980 से अधिक अंकों के साथ इसे सलामी दी। वित्त मंत्री ने इफ्रास्ट्रक्चर पर कुल पूंजीगत व्यय परिचय में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो कि 10 लाख करोड़ रुपये होगा। इससे देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का मील कापत्थर हासिल करने में मदद मिलेगी। करदाताओं को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या कोघटाकर 5 करने और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करने के लिए कर संरचना को बदलनेका प्रस्ताव दिया। अंत में उन्होंने मोदी सरकार को 7 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाने, देश को 10वें स्थान सेदुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और केवल 9 वर्षों में व्यक्तिगत आय को दोगुनाकरने में सक्षम बनाने के लिए बधाई दी।

केंद्रीय बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया : सीए नवीन अग्रवाल

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। अग्रसेन बैंक के वाईस चेयरमैन तथा अग्रवाल शिक्षा समिति के सचिव सीए नवीन कुमार अग्रवाल ने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो की पूर्णतः आर्थिक प्रगति एवं सभी सेक्टरो की उचित का रास्ता तय कर रहा है. इस बजट में आर्थिक संतुलन के साथ-साथ सामाजिक संतुलन का भी ख्याल रखा गया है, लघु उद्योग से लेकर शिक्षा, स्वस्थ, नौकरी पेशा वर्ग, एवं इफ्रास्ट्रक्चर विभाग सभी को कुछ न कुछ दिया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को बहुत महत्व देकर बढ़ाया गया है एवं स्व-उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया है। नए उद्योग शुरू हो इसके लिये सरकारी प्रणाली में कुछ छूट व बदलाव किये गए हैं और टैक्स ऑडिट की सीमा 2 करोड़ से बढ़ा कर 3 करोड़ कर दी गई है, इंडिविजुअल टैक्स स्लैब रेट में बदलाव किया गया है और नए

निरंकारी सद्गुरू माता सुदीक्षा जी का निजामाबाद के मोताड़ में आगमन कल

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। निरंकारी सद्गुरू माता सुदीक्षाजी तथा निरंकारी राजपिता जी का निजामाबाद के मोताड़ में आगमन 3 फरवरी को हो रहा है। इस संदर्भ में, संत समागम मोताड़ की जोमल इन्चार्ज श्रीमती मोहिनी आहुजा ने विस्तार से बताया कि,संत निरंकारी मिशन की प्रमुख निरंकारी सद्गुरू माता सुदीक्षा जी महाराज तथा निरंकारी राजपिता जी का मोताड़ का दौरा तय हुवा है। इन संतों के दौरे से स्थानीय भक्तों व नागरिकों में हर्षोल्लास का वातावरण छा चुका है। जिसमें उन्होंने आगे बताया कि इन संतों का दौरा शुक्रवार 3 फरवरी को निजामाबाद जिले के मोताड़ स्थान पर हो रहा है। इनका धार्मिक सत्संग कार्यक्रम जो निजामाबाद जिले के मोताड़ हायस्कूल ग्राउंड में शुक्रवार दोप.३.30 बजे से सायं 6.30 बजे तक हो रहा है। हाल ही में आयोजित 56 वें महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम के कार्यक्रम के पश्चात इन संतों का दौरा तेलंगाना स्थित निजामाबाद जिले के मोताड़ स्थान पर हो रहा है। इसके चलते मोहिनी आहुजा ने मोताड़ स्थान पर आयोजित हो रहे उपरोक्त संतों पवित्र प्रवचनों के श्रवण के लिए सभी भक्तों को उपस्थित होने का अनुरोध किया है तथा कहा कि निरंकारी संत समागम के इस पवित्र प्रवचन में सभी उपस्थित हो कर प्रवचन का आनंद उठाएं तथा अपने जीवन को कुतार्थ बनाएं।

केंद्रीय बजट देश को अत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम : प्रो. आरएस सराजू

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के प्रो-वाइस चांसलर प्रो. आरएस सराजू ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह बजट अत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। केंद्र सरकार के देश को अत्मनिर्भर बनाने के वादे को पूरा करने के लिए बजट में विशेष प्रस्ताव रखे गये हैं और उन मद्दी में निधि आवंटित भी की गई है। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा आदि क्षेत्र को विशेष प्रधानता दी गई है। देश के युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा देने के केंद्र की घोषणा को बजट में बल मिला है। इससे देश के युवाओं को इन्ोवेशन की ओर अगे बढ़ने का सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस बजट से भारत के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। रेलवे व राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान देकर इन क्षेत्र को अधिक धनराशि का प्रावधान के साथ जल जीवन मिशन द्वारा घर घर स्वच्छ जल उपलब्धि के लिए बजट प्रावधान का विशेष लक्ष्य रखा गया है।

केंद्र सरकार का बजट सकारात्मक व उत्तम : अरुण डाकोतिया

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। मैक्ष पेट्रोचम प्रा. लि. के चेयरमैन अरुण डाकोतिया ने कहा कि, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट सकारात्मक व उत्तम है। इस संदर्भ में अरुण डाकोतिया ने बताया कि इफ्रास्ट्रक्चर पर भारी व्यय के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपये रखे गये हैं। परिणामस्वरूप आगामी कुछ ही वर्षों में अपने देश के पास निस्संदेह ही विश्व का सबसे बेहतर बुनियादी ढांचा होगा। 7 लाख रुपये की ट्रेक्स फ्री इनकम से अधिकांश लोगों को मदद मिलेगी। किसानों के लिए जैव प्रोद्योगिकी या बायो टेक्नालाजी पर पर्याप्त निवेश किया गया है। वयोवृद्ध लोगों के लिए 30 लाख रुपये तक की जमा पर अधिक ब्याज दर की व्यवस्था की गयी है। महिलाओं के लिए बचत बढ़ाने हेतु महिलाओं के नाम पर महिलाओं द्वारा ज्यादा ब्याज दर जमा करने पर महिलाओं की बचत में बढ़ोतरी। रेलवे का भारी निवेश वर्ष 2013 से 10 गुना अधिक होने से रेलवे लाभ की दिशा की ओर अग्रसर होता रहेगा। चेयरमैन ने उपरोक्त बजट को जनता के लिए फायदेमंद बताया।

विकासोन्मुखी है केंद्रीय बजट : प्रमोद केडिया

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। अग्रसेन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद कुमार केडिया ने बताया कि बजट विकासोन्मुखी है। इसने अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किया। वित्त मंत्री आयकर छूट के क्षेत्र में आम आदमी को बड़ी राहत देने में उदार हैं क्योंकि कर छूट की सीमा अब बढ़ाकर 3.00 लाख रुपये कर दी गई है और सालाना 7.00 लाख रुपये तक की आय वालों को कर का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है . इसके अलावा स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है।

बजट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दशक के अंत तक भारत को एक डिजिटल महाशक्ति और एक स्थायी वैश्विक महाशक्ति बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आप जानते हैं, अलग-अलग रूपों में कोविड-19 के लगातार हमलों से दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। व्यापार और उद्योग की विभिन्न रूपों में राहत प्रदान करने में सरकार की समय पर कार्रवाई के कारण हमारा देश प्रगति और समृद्धि के पथ पर सफलतापूर्वक चल सका। राजकोषीय घाटा जो सकल घरेलू उत्पाद के 3.50% से बढ़कर 9.50% हो गया था, अब चालू वित्त वर्ष में 6.40% और 2025-2026 में 4.50% के स्तर को प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है। कुलमिलाकर बजट पर यह कहा जा सकता है कि बजट उत्कृष्ट है क्योंकि यह समाज के सभी वर्गों के कल्याण को देखता है।



तमिलनाडु में आयोजित होने वाली साउथ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैम्पियनशिप में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की टीम में हिन्दी महाविद्यालय के चार खिलाड़ी सुधाकर, संयद नायब, एसके इमरान और शोएब इमरान चयनित होने पर बधाई देते हुए प्राचार्य डॉ. अविनाश जायसवाल एवं क्रीडा विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट आकाश थापा।

टैक्स रेजिमे में टैक्स की छूट 5 लाख से बढ़ा कर 7 लाख कर दिया गया है और पुराने टैक्स प्रणाली में भी अच्छा बदलाव किया गया है जिससे करदाता को राहत मिलेगी. इस बजट में महिला सम्मान बचत पत्र कि घोषणा की गई है जिस के अंतरगत किसी महिला व कन्या के नाम पर २ लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते है जिस पर 7.50% ब्याज मिलेगा, सीनियर सिटीजन को बचत की लिमिट 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख कर दिया है।

मैं इस बजट का स्वागत करता हु व आशा है कि हमारा देश उन्नति और प्रगति की राह पर आगे बढेगा।


निर्मला का निर्मल बजट : नरसिंगदास लोया



हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। माहेश्वरी समाज, हैदराबाद-सिकंदराबाद के संगठन मंत्री नरसिंगदास लोया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अगले वर्ष आम चुनाव के पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा प्रस्तुत आखिरी पूर्ण बजट में समावेशी विकास, हरित वृद्धि, युवा शक्ति एवं समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुँचाने पर प्राथमिकता दी गई है। अतः इसे निर्मला का निर्मल बजट कहा जा सकता है। कई वर्षों से अपेक्षित व्यक्तिगण आयकर स्लेब में बदलाव सारहनीय कदम है। अब व्यक्तिगत आयकर के अन्तर्गत 9 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर सिर्फ 45 हजार रुपये आयकर देय होगा। महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "महिला सम्मान बचत पत्र" का प्रावधान जिसके अन्तर्गत महिलाओं का 2 वर्ष तक की सावधी जमा पर 7.5% ब्याज मिलेगा, स्वागत योग्य है।

सभी वर्गों के विकास में भाजपा

सरकार अग्रणी : लालसिंह



(जीएचएमसी), गोशामहल डिवीजन के पाषंद लालसिंह ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार व्दारा प्रस्तुत बजट सचमुच में ही प्रासंगिक व सराहनीय है। इस संदर्भ में पाषंद लालसिंह ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण व्दारा वर्तमान बजट जोकि भारत की आजादी के अमृत काल का पहला बजट है तथा प्रस्तुत बजट सचमुच में ही प्रासंगिक व सराहनीय है। सरकारात्मक दृष्टिकोण रखनेवाले हर वर्ग के व्यक्तिगण तत्संबंधित बजट की जरूर प्रशंसा करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस बजट में गृह उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कई वस्तुओं को जैसे मोबाईल फोन्स, कैमर लैप्स अत्याधुनिक दैनिक उपयोगी उपकरणों को आदि को सस्ता किया गया है।यही नहीं मध्यमवर्ग के लिए भी निम्नानुसार आयकर में राहत दी गयी है।जिसमें 03 लाख रुपये तक शून्य कर, 03 से 06 लाख रुपये तक 5 प्रतिशत कर, 6 से 9 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत कर, 9 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत कर, 12 से 15 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत कर, 15 लाख रुपये से उपर 80 प्रतिशत कर लगाया गया है। सरचार्ज को भी 37% से घटाकर 25% किया गया है। किसानों एवं छछुआरों के लिए भी बेहतर स्क्रीम आरंभ की गयी। साढे तीन लाख एकलव्य टाईबल स्कूलों में 38.800 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। रेलवे के लिए अबतक किसी भी सरकार व्दारा प्रस्तुत किया गया बजट जो 9 गुना अधिक(रु.2.40 लाख करोड) है। 50 नए हवाई हैलपोर्ट बनाए जायेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि, सरकारी कर्मचारियों ने भी इस बजट की सराहना कर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर वर्तमान बजट को सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभप्रद बताया।

बजट प्रतिक्रिया

आजादी के महोत्सव का यादगार बजट : अमरसिंह राजपुरोहित

हैदराबाद, 1 फरवरी(स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरसिंह राजपुरोहित ने कहा कि, सत्तारूढ मोदी सरकार व्दारा प्रस्तुत बजट से लगभग सभी वर्गों का फायदा होगा यह निश्चित है। इस संदर्भ में, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरसिंह राजपुरोहित ने आगे बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन व्दारा वर्तमान वार्षिक बजट में सभी वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाते हुए लगभग सभी प्रकार का आय के करों में कमी की गयी है तथा 7 लाख रुपये तक आय में कोई भी कर नहीं लगाया गया है। यही नहीं केंद्र सरकार ने कृषि, विडियोग्राफी एलडीडी व मोबाइल फोनों पर टैक्स में कमी की है। इस प्रभावी कदम से देश के किसानों, व्यापारियों का निश्चित ही फायदा होगा। साथ ही एक्सट्राज ड्यूटी कम की गयी है परिणामस्वरूप पेट्रोल, डिजल की दरों में कमी होना निश्चित है। इसके चलते उन्होंने कहा कि, आजादी के महोत्सव का यह सचमुच में ही यादगार बजट है।

वित्त मंत्री ने सच्चे अर्थ में एक सार्थक बजट पेश किया : प्रकाश एच. भंडारी

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। अग्रुव्रत समिति, हैदराबाद के अध्यक्ष प्रकाश एच भंडारी ने बताया कि आज लोक सभा में वित्त मंत्री निर्मला सितारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया वित्तीय वर्ष 23 का बजट सच्चे अर्थ में प्रतुस्त एक सार्थक बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने समाज के सभी वर्गों को खुश किया हैं। यह बजट सच्चे

अर्थों में आजादी के अमृत वर्ष का बजट कहा जा सकता है। यह बजट आर्थिक सुधारिकरण व सर्व जन सुखाय सर्व जन हिताय वाला बजट है। इस बजट से शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में विपुल धनराशि के आवंटन से नई नौकरियों में बढ़ावा व नये रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारत के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। रेलवे व राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान देकर इन क्षेत्र को अधिक धनराशि का प्रावधान के साथ जल जीवन मिशन द्वारा घर घर स्वच्छ जल उपलब्धि के लिए बजट प्रावधान का विशेष लक्ष्य रखा गया है।

सभी वर्गों की आशा के अनुरूप है बजट : जाजू

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ के संयोजक व समाजसेवी सतीश जाजू ने बताया कि 2023-24 का बजट सभी वर्गों की आशा के अनुरूप है। यह बजट गरीब लोगों,मध्यम वर्ग के लोगों, किसानों सहित सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करता है।आयकर में जो भी बदलाव किया गया है वह सभी वर्गों को सोचकर किया गया है और भी अन्य चीजें वित्त मंत्री जी ने आगे के भविष्य को सोचकर इस बजट में बहुत सारे चीजों की नींव रखी हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक कदम है।

संतोषजनक है बजट : डॉ. दिलीप पंसारी

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। हैदराबाद सिकंदराबाद रीटेल डीलर एसोसिएशन के महामंत्री डॉ. दिलीप कुमार पंसारी ने बताया कि सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में अग्रत्यक्ष रूप से एक बार फिर से देश की आत्म निर्भरता पर ध्यान दिया गया है।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लिए गए कई निर्णय निकट भविष्य में देश के हित में होंगे। पर्यटन के क्षेत्र में व्यावसाय को बढ़ाने की कोशिश और आयकर की सीमा को बढ़ाना वित्तीय दृष्टि से सराहनीय कदम है। लघु उद्योग और व्यावसाय के क्षेत्र में बढ़ावा देश की बड़ी आवश्यकता थी। इस दिशा में कोई भी ठोस घोषणा नहीं दिखी जो एक बड़ी आवश्यकता थी। कुल मिलाकर यह संतोष जनक और राहत पूर्ण और गैर राजनीतिक बजट है।

केंद्रीय बजट काफी प्रशंसनीय : सुमन भुवानिया

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। अग्रणी महिला मंच की अध्यक्ष सुमन भुवानिया ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि केंद्रीय बजट काफी प्रशंसनीय है। मध्यम क्लास वालों को काफी राहत देने वाला बजट है। सभी की लोगों को भी इस बजट से फायदा होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारे देश की तरकी के लिए बहुत ही सराहनीय बजट निकाला है। कुल मिलाकर बजट राष्ट्रहित और जनहित का बजट है।

बजट हर आय के वर्ग के लिए तोहफा : अरुणा गुप्ता

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। तेलंगाना प्रदेश माथुर वैश्य इन्टरनेशनल हैदराबाद ग्रेटर की अध्यक्ष अरुणा गुप्ता ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में बजट पेश कर भारत की जनता को आयकर में छूट देकर हर आय के वर्ग के लोगों को बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। उन्होंने इन्कमेटैक्स और स्लेब में बहुत बड़ा बदलाव किया है किसानों को भी राहत मिली है। सब मिलाकर अच्छा बजट पेश किया है।

प्रथम पृष्ठ का शेष भाग

गरीबों को एक ...

कुछ और बड़े रैलान
रेलवे: 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है।
सीनियर सिटीजनस: सेविंस अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी।
महिला: सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा।**पीएम आवास योजना:** बजट में 66% बढ़ोतरी हुई है। सेक्टर अब 79 हजार करोड़ रुपए का हो गया है।**नया इन्फ्रास्ट्रक्चर:** 2014 से मौजूद 157 मेट्रिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड और वाटर एगरो ड्रोन सर्टिफ़ बनेंगे।
5G सर्विस: इस सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब

बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के सात आधार बताए। इन्हें समर्पित कहा गया है। 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. यानी आर्मी को हथियार खरीदने क्षमता विस्तार 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र।
वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस 'जन्मभागीदारी' के लिए 'सबका साथ, सबका प्रयास' अनिवार्य है।

हथियार खरीद के ...

आर्मी के लिए इस बार रेवेन्यू बजट 1.8 लाख करोड़ रुपए है। पिछले साल रेवेन्यू बजट 1.6 लाख करोड़ रुपए था। यानी करीब 20 हजार करोड़ की

यह बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा था:
महबूबा मुफ्ती

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा था। टैक्स बढ़ाए गए, कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। कुछ सांठगांठ वाले पूंजीपतियों और बड़े कारोबारियों के लिए टैक्स वसूला जा रहा है। जनता को टैक्स से फायदा होना चाहिए लेकिन इससे उसकी कमर टूट रही है।

सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है तेलंगाना : केटीआर

मंत्रियों ने किया तेलंगाना के पहले केजी से पीजी कैम्पस का शुभारंभ



राजन्ना सिरसिला, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और कोई भी अन्य राज्य भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों में तेलंगाना द्वारा प्राप्त वृद्धि और विकास का मुकाबला नहीं कर सकता है। विकास हमारी जाति है और कल्याण हमारा धर्म है। जनहित हमारी प्राथमिकता है। चाहे वह कृषि हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, अर्थव्यवस्था हो,

स्वास्थ्य हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी कमी या पिछड़ेपन को इंगित करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि आलोचना करना या बेबुनियाद आरोप लगाना आसान है लेकिन वादा पूरा करना एक चुनौती है। 2004 में, गंभीरावपेट में लोगों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की थी कि राज्य गठन के तुरंत बाद केजी से पीजी

शिक्षा शुरू की जाएगी। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तेलंगाना के पहले केजी से पीजी कैम्पस का उद्घाटन गंभीरावपेट में किया गया है, रामा राव ने कहा। मंत्री ने कहा कि गंभीरावपेट में केजी से पीजी परिसर का नाम तेलंगाना के विचारक, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जयशंकर के नाम पर रखा जाएगा। केजी टू पीजी मुफ्त शिक्षा पहले के तहत, सरकारी स्कूलों के

अलावा, केजीबीबी, मॉडल स्कूल, सरकारी जूनियर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एक परिसर में स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस पहल के तहत मन और-मन बादी कार्यक्रम शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि कोई अन्य राज्य 1000 गुरुकुल स्थापित करने का दावा नहीं कर सकता है और तेलंगाना सरकार प्रत्येक छात्र पर वर्दी, किताबें, भोजन और अन्य खर्चों पर सालाना लगभग 1.20 लाख रुपये खर्च कर रही है। प्रशासनिक सुधार, विशेष रूप से तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए एकीकृत जिला समाह्वणालय परिसरों के लिए चीजों को आसान और सुविधाजनक बना रहे थे। इसी तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ लोगों की सुविधा के लिए, कांटी वेलुगु शिवाजी में अक्षरों की जगह रेखाचित्रों और रेखाओं का उपयोग किया जा रहा था।

तेलुगुतल्ली फ्लाईओवर से खैरताबाद तक 5 से 11 फरवरी तक कोई यातायात नहीं

सीएस ने विस अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक



हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। 11 फरवरी को होने वाली फॉर्मूला ई रेस के मद्देनजर 5 फरवरी से 11 फरवरी तक तेलुगुतल्ली फ्लाईओवर से खैरताबाद फ्लाईओवर और मिंट कंपाउंड से प्रसाद के आईमैक्स तक यातायात की अनुमति नहीं होगी। 17 फरवरी को उद्घाटन के लिए डॉ बीआर अंबेडकर सचिवालय परिसर से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था और फॉर्मूला ई रेस की व्यवस्थाओं पर चर्चा के लिए मंगलवार को यहां मुख्य सचिव ए. शांति कुमारी द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि फॉर्मूला ई रेस के कारण सचिवालय के कार्यों में देरी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों को तैयार किया

जाना था, उन्होंने पुलिस, आरएडबी, जीएडी, तेलंगाना विशेष पुलिस और आईटी विभागों को निकट समन्वय में काम करने के लिए कहा।

बैठक में नए सचिवालय भवन को उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। तेलंगाना विशेष पुलिस की तीन कंपनियों और शहर के 300 पुलिसकर्मी सचिवालय भवन की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के करीब 22 जवानों को लगाया गया है।

डीजीपी अंजनी कुमार, शहरी विकास विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव (आईटी) जयेश रंजन, आरएडबी सचिव श्रीनिवास राजू, हैदराबाद

पुलिस आयुक्त सीवी आनंद, एसपीएफ डीजी उमेश शराफ, अतिरिक्त डीजी संजय कुमार जैन, डीजी फायर सर्विसेज नागी रेड्डी,

अतिरिक्त डीजी इंटेलिजेंस अनिल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सत्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा की

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। विधानसभा अध्यक्ष पोचामरा श्रीनिवास रेड्डी और विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने बुधवार को तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद के बजट सत्र की व्यवस्था की समीक्षा की, जो 3 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान, विधायी मामलों के मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, विधानसभा के मुख्य सचेतक दस्यम विनय भास्कर, परिषद के मुख्य सचेतक एमएस प्रभाकर राव, विधायी सचिव डॉ वी नरसिम्हा चारुलु, मुख्य सचिव शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार और विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर बोलते हुए, अध्यक्ष पोचामरा श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना विधानसभा के सत्रों ने एक बेंचमार्क स्थापित किया है और ये अब अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल हैं। अध्यक्ष ने कहा, "सदन में सदस्यों द्वारा जो कुछ भी मांगा गया है, उसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि सभी विधायकों को तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं में जानकारी प्रदान की जाए और जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने डीजीपी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए विस्तृत कदम उठाने का निर्देश दिया।

विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विशेष मुख्य सचिव ने बैठक की



हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। विशेष मुख्य सचिव, एम एड यूडी अरविंद कुमार ने आज बीआरकेआर भवन में एलएक्यू, विशेष उल्लेख, आश्वासन पर प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने 3 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा बजट सत्र के लिए एलएक्यू, एलसीक्यू, विशेष उल्लेख, आश्वासन पर उत्तर तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने

अधिकारियों को प्रत्येक विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने और विभाग से जवाब प्रस्तुत करने पर विधानसभा अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए कहा। अधिकारियों को शून्यकाल के दौरान सदन के कामकाज और सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों और अन्य संबंधित मामलों को अग्रिम रूप से सूचित करने के लिए कहा गया। उन्होंने सचिवों को सत्र के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। सभी लंबित लेखापरीक्षा पैराओं पर उत्तर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बजट सत्र को देखते हुए अनुदानों की जानकारी भी दी जाए और सभी अधिकारी पूरी जानकारी के साथ तैयार रहें।

हैदराबाद का ताजरा संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि हैदराबाद में भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) को श्री अन्ना रिसर्च के लिए देश को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, "बाजरा को लोकप्रिय बनाने में भारत सबसे आगे है, जिसके उपयोग से किसानों की भलाई और खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है।" हम कई प्रकार के श्री अन्ना उगाते हैं, जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, रामदाना, चीना, और

सामां & इनके कई स्वास्थ्य लाभ हैं और सदियों से हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा, "अब, श्री अन्ना रिसर्च के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, हैदराबाद में भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा।" उन्होंने कहा कि भारत बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) पूर्व में ज्वार अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर) और राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र (एनआरसीएस), भारतीय परिषद के तत्वाधान और

विकास के सभी पहलुओं पर काम करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। आईआईएमआर हैदराबाद के राजेंद्रनगर में स्थित है। ज्वार और अन्य बाजरा पर बुनियादी और राणीतिक अनुसंधान में लगा हुआ है। यह बाजरे के प्रजनन, सुधार, पैथोलॉजी और मूल्य संबंधन पर कृषि अनुसंधान करता है। ज्वार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (सोरघम पर एआईसीआरपी) के माध्यम से आईआईएमआर राष्ट्रीय स्तर पर ज्वार अनुसंधान का समन्वय और सुविधा प्रदान करता है और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संबंध प्रदान करता है।



टी-20 में भारत की सबसे बड़ी जीत

न्यूजीलैंड को 168 रन से हराया, गिल का शतक...पंड्या ने लिए 4 विकेट



अहमदाबाद, 1 फरवरी (एजेंसियां)। टीम इंडिया ने तीसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। अहमदाबाद में हुए सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत ने शुभमन गिल (नाबाद 126 रन) के इस फॉर्मेट में पहले शतक की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 234 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम 12.1 ओवर में 66 रन के स्कोर पर ऑलराउट हो गई। हार्दिक पंड्या ने सबसे

ज्यादा चार विकेट लिए। पंड्या ने ब्लेयर टिकनर एक रन, लोकी फर्ग्युसन शून्य, ग्लेन फिलिप्स 2 रन और फिन एलेन 3 रन के विकेट लिए।

हमारी सबसे बड़ी जीत, कीवियों की सबसे बड़ी हार यह टी-20 क्रिकेट में रन के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी हार है। भारत का पिछला रिकॉर्ड 143 रन से जीत

का था। टीम इंडिया ने 2018 में आयरलैंड को 143 रन से हराया। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में 103 रन से हारी थी।

टी-20 में किसी टेस्ट टीम की दूसरी सबसे बड़ी

भारत ने टी-20 इंटरनेशनल में किसी टेस्ट टीम की दूसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया। पहले स्थान पर श्रीलंका की टीम है। श्रीलंका ने 2007 में केन्या को 172 रन से हराया था। अगर टेस्ट न खेलने वाली टीमों के रिकॉर्ड भी शामिल करें तो टी-20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड चेक रिपब्लिक के पास है। चेक टीम ने 2019 में तुर्किये को 257 रन से हराया था।

बजट में तेलंगाना के लिए कुछ नहीं : कविता



हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। केंद्रीय बजट को गणितीय गणना करार देते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने आलोचना की है कि केंद्र सरकार एक बार फिर तेलंगाना राज्य के विकास के लिए धन आवंटित करने में विफल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद बुधवार को यहां मीडिया से बात करते हुए एमएलसी कविता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने 'सबका साथ-सबका

विकास' के नारे का पालन नहीं कर रही है और कहा कि बजट में दिशा की कमी है, यह दर्शाता है भाजपा सरकार का कोई ठोस विजन नहीं है। तेलंगाना से जुड़ी कई परियोजनाएं लंबित हैं। लेकिन, बजट में परियोजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है। कविता ने कहा कि कान्टाक की ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की घोषणा से मैं खुश हूँ। हालांकि, केंद्र सरकार तेलंगाना के प्रति भेदभाव क्यों दिखा रही है और नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद मिशन भागीरथ के लिए बजट में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। बीआरएस सरकार ने अब तक सिंचाई परियोजनाओं के लिए 80,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं और पूरे तेलंगाना में पानी की सुविधा प्रदान की है। कविता ने कहा कि केंद्र सरकार सिंचाई क्षेत्र के लिए धन आवंटित करने में विफल रही है और इस संबंध में इसका कोई विजन नहीं है।

केंद्रीय बजट 2023 पर एफटीआईआईसी की प्रतिक्रिया



हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट को उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कई उद्योग विशेषज्ञ बजट प्रस्तुति के लाइव देखने के लिए फेडरेशन हाउस में इकट्ठे हुए थे। केंद्रीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुति समाप्त होने के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री (एफटीआईआईसी) ने लाइव टेलीकास्ट के साथ-साथ बजट पर उद्योग की प्रतिक्रिया का आयोजन किया। एफटीसीसीआई के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा, "यह वादों से भरा एक साल का भविष्योन्मुखी बजट है।" अनिल अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि यह सभी क्षेत्रों को आकर करने वाला विकासोन्मुख बजट है। सात प्राथमिकताएं: समावेशी विकास, अंतिम मील तक

पहुँचना, बुनियादी ढाँचे का विकास और निवेश, क्षमता को उजागर करना, युवा शक्ति वित्तीय क्षेत्र और हरित विकास सभी क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करता है। जनजातीय विकास, उनका आवास, एकलव्य मॉडल स्कूल, बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा, 50 हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करना, हेलीपैड, ग्रामीण विकास पर जोर, एमएसएमई को बहुत मदद की जरूरत, पर्यटन पर जोर, कोशल केंद्र, आयकर सीमा को 7 लाख तक बढ़ाना सभी उद्योग सहित सभी के लिए अच्छी पेशकश है। एफटीसीसीआई की औद्योगिक विकास समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास गैरिमेल ने इसे 'बहुत अच्छा बजट' करार दिया। यह एक संतुलित बजट भी है। उन्होंने बुनियादी ढाँचे के विकास और इस क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि के लिए बड़े टिकट आवंटन की सराहना की। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कैपेक्स परिव्यय 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उनके संतुलित बजट के लिए शाबासी दी, जिसमें हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया था। कम अनुपालन बजट उद्योग के लिए अच्छा है। उन्होंने एमएसएमई को सहायता जारी रखने के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कोष में 9000 करोड़ रुपये डालने, ऋण की लागत को कम करने के लिए भी धन्यवाद दिया। अनुबंध विफलता संरक्षण और जब्त की गई राशि का 95 फीसदी वापस करना उद्योग के विकास के लिए अच्छा है। उन्होंने बजट को 10 में से सात अंक दिए। जीएसटी और एफटीसीसीआई की सीमा शुल्क समिति के अध्यक्ष सुधीर वी.एस. ने कहा कि यह एक सर्व-अनुकूल बजट है। बजट कई मध्यम वर्ग के लोगों के बचाव में आया है। बजट कोशल और शिक्षा पर केंद्रित है जो समय की जरूरत है। हरित उर्जा पर ध्यान स्वागत योग्य है। यह वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह आयात बजट को कम करता है और राष्ट्र के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा बचाता है। प्रत्यक्ष कर समिति, एफटीसीसीआई के अध्यक्ष हरी गोविंद प्रसाद ने कहा कि कुल मिलाकर बजट बहुत अच्छा है। 'ये दिल मांगे मोर' का कोई अंत नहीं है।

आईटी स्लैब दरों में कमी

का स्वागत : एपी वित्त मंत्री

अमरावती, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बगुना राजेंद्रनाथ रेड्डी ने आयकर स्लैब दरों को कम करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है और केंद्रीय बजट 2023 में कुछ बजटीय आवंटन पर संतोष व्यक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में बजट पेश किए जाने के बाद केंद्रीय बजट पर एक मीडिया

सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उर्वरक, यूरिया, चावल और गेहूं सब्सिडी के लिए आवंटन घटा दिया गया, कृषि और सड़कों के लिए आवंटन और रेलवे अधिक थे। उन्होंने कहा कि बजट सात क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए तैयार किया गया है, लेकिन राज्यों से संबंधित मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ हुई प्री-बजट मीटिंग में हमारे सुझावों पर विचार किया गया। हम एक पंप स्टोरेज सिस्टम लागू करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र में एक रोल मॉडल है और उन्होंने इस पर एक नीति की घोषणा की है। इस बजट में कुछ ऐसे फैसले हैं जो हमारे राज्य में लागू योजनाओं के अनुरूप हैं। नर्सिंग कॉलेजों, कोशल विकास केंद्रों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का निर्माण उनमें से कुछ हैं। यह गृह निर्माण और एकलव्य विद्यालयों के विकास के लिए उपयोगी है।



हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। पूर्व विधायक व भाजपा नेता कोमोटिडु राजगोपाल रेड्डी ने आज आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस के भ्रष्ट आचरण के मुनुगोड में चुनाव जीतने के बाद

राज्य के लोगों का सीएम केसीआर पर से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में हार का सामना करने के डर से केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया। राजगोपाल रेड्डी ने दावा किया कि लोग भाजपा की ओर देख रहे हैं और आशा करते हैं कि केसीआर कुशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री केसीआर के कल्याणकारी कार्यक्रम जैसे रैतु बंधु, दलित बंधु, डबल बेडरूम हाउस और अन्य बीआरएस प्रमुख की नींद की है। उन्होंने सीएम केसीआर पर आरोप लगाया कि वे केजी से पीजी शिक्षा देने का वादा पूरा करने और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

स्वास्थ्य खराब रहने पर दंपति ने आत्महत्या की

हैदराबाद, 1 फरवरी (स्वतंत्र वार्ता)। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक जोड़े ने अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वेंकटराव नगर कॉलोनी में सोमिरेड्डी (65) और मंजुला (58) मृत पाए गए। मंजुला ने खुद को फांसी लगा ली, जबकि सोमिरेड्डी पर कीटनाशक का सेवन करने का संदेह है। यह घटना मंगलवार देर रात तब सामने आई जब मंजुला के भाई वेंकट रेड्डी उसके बार-बार फोन कॉल का जवाब नहीं देने पर उसके घर गए। वेंकट रेड्डी ने पुलिस को सूचित किया, जिसने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस को संदेह है कि युगल ने अस्वस्थता के कारण इतना बड़ा कदम उठाया। दंपति के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा शहर के मियापुर क्षेत्र में अलग रहता है, जबकि छोटा बेटा विदेश में काम करता है।

॥ ॐ श्री विश्वकर्माय नमः ॥

श्री राजस्थानी विश्वकर्मा समाज, हैदराबाद - सिकंदराबाद

के तत्वाधान में

श्री विश्वकर्मा जयंती समारोह - 2023

भगवान श्री विश्वकर्माजी का विशाल जागरण

आज गुरुवार, 2 फरवरी 2023 को रात्रि 9.15 बजे से

स्थान : श्री राजस्थानी विश्वकर्मा समाज, प्लॉट नं. 68/69, जे. के. नगर, सुभाष नगर, कुतबुल्लापुर (सुबिचा), जीडिमेन्टला, सिकंदराबाद - हैदराबाद-55.

सभी राजस्थानी विश्वकर्मा बन्धुओं से अनुरोध है कि सम्पूर्ण कार्यक्रम में सहपरिवार भाग लेकर दर्शन-प्रसाद का लाभ उठावें।

संपर्क: 9246524441, 9246524440, 9849038510, 9948205999, 9866395060, 9885292921, 9618979757, 9848206775, 9246528624, 9346620117, 9848861744, 9618036102, 9533782610, 8008025588, 9885588614, 9849001297

भजन गायक समाजबन्धु द्वारा